www.knsllive.com CIC CIC वर्ष-04 अंक-05 मुरादाबाद, भारत सरकार से रजिस्टर्ड

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीजीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा,अलीगढ़, संभल, श्रावस्ती,अलीगढ़ और उत्तराखंड

26 April, **2024** (Friday)

हीट स्ट्रोक...उल्टी-डायरिया के मरीजों में इजाफा---

RNI NO.UPBIL/2021/83001

छत्तीसगढ़ पत्रकार जनकल्याण संगठन के ---

page 7

Step-by-step guide on

मुल्य- ०३ रूपये पृष्ट-०८

आंवला में बोले पीएम मोदी:

सपा के शहजादे की सरकारों लगते थे कफ्यू, कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीनने की कह रहे बार मोदी सरकार का नारा लगवाया।



ने बृहस्पतिवार को आलमपुर जाफराबाद के सैनिक मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर सपा और कांग्रेस ही रही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी गहनें, मंगलसूत्र पहनकर खुलेआम

प्रधानमंत्री ने कहा कि दो शहजादों की जोड़ी देखिए। यूपी में सपा के शहजादे की जब सरकार थी, तब यहां कपर्य लगते थे। माताएं-बहने

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को आंवला लोकसभा क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने परिवारवाद को लेकर सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

नहीं निकलती थीं। कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर मंगलसूत्र को छीनने की घोषणा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए कहा कि बदायुं और बरेली वालों को राम-राम। मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। भीषण गर्मी में आपको जो तकलीफ हुई है, उसके लिए क्षमा चाहता हं। पीएम मोदी ने जनता से फिर एक कहा कि आपका ये प्यार ही मेरे जीवन की ऊर्जा है। विशेष रूप से माताएं-बहनें इतनी विशाल संख्या में यहां आई हैं, मोदी आपकी सेवा में जीवन का पल-पल और शरीर का कण-कण खपाने के लिए निकला हुआ है। सरकार के कामों को गिनाया प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी मजबूत नींव, उतना ही मजबृत घर। इसी सोच के साथ आज भाजपा विकसित भारत के लिए गरीब, किसान, युवा और नारीशक्ति को सशक्त कर रही है। ये भाजपा ही है... जिसने बहनों की बिजली, नल से जल, शौचालय, सस्ते गैस कनेक्शन जैसी अनेक रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पुरा किया है। अब 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी मोदी ने उठाने का निर्णय लिया है, अब किसी बुजुर्ग को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में आपका ये बेटा मोदी बैठा है। सीएम योगी की तारीफ की उन्होंने कहा कि आज यूपी की पहचान नए अवसरों के तौर पर बन रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है। यूपी के सांसद के नाते मेरे लिए भी ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पहले आपके हक का पैसा भ्रष्टाचारी लूट लेते थे। आज बरेली और बदायं के किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि के 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऐसा काम तब होता है जब विकास सर्वोपरि होता

है। मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव... एक हजार वर्ष की गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। सपा-कांग्रेस पर बरसे उन्होंने कहा कि दस साल पहले सपा और कांग्रेस वाले कहते थे कि ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राम मंदिर के नाम पर चिढाते थे। गाली देते थे। आपके आशीर्वाद से रामलला का मंदिर बनवाया। तारीख और समय भी बताया और निमंत्रण भी दिया। इतना बडा अवसर था, फिर भी उनका अहंकार इतना था कि सपा और कांग्रेस दोनों को राम मंदिर का निमंत्रण घर जाकर दिया था, उसे ठुकरा दिया था। अगर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को स्वीकार

किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी... वो भी श्रीकृष्ण की बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। सपा-कांग्रेस का इंडी गठबंधन तष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कांग्रेस का इरादा है कि ओबीसी का आरक्षण छीन कर उनके खास पसंद वालों को दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इन इरादों पर सपा के शहजादे ने भी चप्पी साध रखी है, यानी उनका कांग्रेस के इस इरादे पर पूरा-पूरा समर्थन है। कल से देश में एक नया नारा चर्चा में आया है, जो हम सबके लिए चिंता का नारा है। नारा है- कांग्रेस की लूट... जिंदगी के साथ भी, जिंदगी

मुंबई । मध्य मुंबई के एनटॉप हिल इलाके में कई घंटों से लापता दो बच्चे इलाके में खड़ी हुई एक कार के अंदर मृत पाए गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी पुलिस ने संदेह जताया है कि बच्चों की मौत संभवतः दम घुटने के कारण हुई। अधिकारी के मुताबिक कार अंदर से बंद थी और ऐसा लगता है कि बच्चे इसका दरवाजा नहीं खोल सके। मुस्कान मोहब्बत शेख (5) और साजिद मोहम्मद शेख (७) बुधवार अपराह अपने घर के बाहर खेल रहे थे, जहाँ यह कार खड़ी थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब बच्चे शाम तक घ नहीं लौटे तो उनके माता-पिता ने उनकी तलाश शुरू की। इसके बाद उन्होंने एनटॉप हिल पुलिस थाने में बच्चों की

गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई

कुछ घंटों के बाद, वहां से गुजर रहे

एक राहगीर ने बच्चों को कार के अंदर

बेहोश हालत में देखा।

मुंबई में दो लापता बच्चों

के शव कार के अंदर मिले

शरद पवार ने जारी किया घोषणा पत्र

नौकरी से लेकर महिला आरक्षण तक का किया एलान

मुंबई । लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरद चंद्र पवार (एनसीपी-एससीपी) ने गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। घोषणापत्र में महिला सुरक्षा के लिए काम करने का वादा किया गया है। साथ में घोषणापत्र में एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा किया गया है। बता दें, पार्टी ने अपने घोषणापत्र का नाम एससीपीथ पत्र रखा है। इस बीच, शरद पवार ने अमित शाह के किसानों की आत्महत्या को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के घोषणापत्र में जाति जनगणना के लिए समर्थन जताते हुए किसानों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग के गठन प्रशिक्षुता का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया। पार्टी का कहना है कि वह जम्मू एवं कश्मीर



चुनावह्न के विचार को खारिज करती है। ह्यशपथनामाह्न शीर्षक वाले घोषणापत्र के अनुसार, एनसीपी (एससीपी) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य ऐसे कानूनों की समीक्षा करेगी और उनमें बदलाव का प्रस्ताव करेगी जो कि संवैधानिक

भी जिक्र किया गया है कि पार्टी राज्य और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने, अधिकारों के वितरण की समीक्षा करने और संवैधानिक संशोधनों को लागू करने की वकालत करती है। मुद्दों को संसद में उठाएंगे घोषणापत्र को जारी करते हुए एनसीपी (एससीपी) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, 'हम

🛑 एनसीपी-एससीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हम आज अपना घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। घोषणापत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणापत्र 'शपथ पत्र' है।

हैं। घोषणापत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणापत्र 'शपथ पत्र' है। महंगाई बढ रही है, किसान परेशान हैं और बेरोजगारी चरम पर है।' 10 सालों में एजेंसियों का दुरुपयोग उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़े हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे। हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं

की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा।' एनसीपी (एससीपी) प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की मौजूदगी में जारी घोषणापत्र में जाति जनगणना, अग्निपथ योजना को खत्म करने, महिलाओं के लिए सुरक्षा ऑडिट और उनसे संबंधित साइबर कानुनों को मजबूत करने का भी समर्थन किया गया है।कहा गया है कि पार्टी किसानों, यवाओं, महिलाओं, मजदरों और जाति जनगणना से संबंधित मुद्दों पर कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लिखित पार्टी के पांच ह्यन्यायह्न (गारंटी) का समर्थन करती है। पाटिल ने कहा कि अगर पार्टी को केंद्र की सत्ता में आने का मौका मिला तो वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ह्यअधिक आसानह्न बनाएगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपये पर तय की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा

सब्सिडी दी जाएगी।

एक दिन डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस : रक्षामंत्री



लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) । रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, वह जल्द ही ह्यडायनासोरह्न की तरह विलुप्त हो जाएगी। सिंह ने खीरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अजय कुमार मिश्रा और धौरहरा से पार्टी प्रत्याशी रेखा वर्मा के समर्थन में लखीमपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा, वे दिन करीब आ गए हैं जब ये

लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार मिश्रा और धौरहरा से प्रत्याशी रेखा वर्मा के समर्थन में लखीमपुर में एक चनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, वह जल्द ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी।

दावा किया, कांग्रेस जिस तरह चल रही है, एक दिन वह डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। सिंह ने भारत में विरासत कर को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की हालिया टिप्पणी की याद दिलाते हुए लोगों को आगाह किया और कहा कि कोई भी भारतीय परिवार अपने मुखिया की मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का 55प्रतिशत हिस्सा नहीं छोड़ सकता। अपने आधे घंटे से अधिक लंबे संबोधन में रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत रक्षा,

आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास के मामले में किस तरह से आगे बढ़ा है। लोगों से भाजपा सरकार को फिर से सत्ता में लाने का आग्रह करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वादे पर काम करती है। उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, तीन तलाक और नागरिकता कानून जैसे विभिन्न कदमों का जिक्र किया। सिंह ने जोर देकर कहा, रामलला अब कुटिया से अपने शाही महल में चले गए हैं, जो दशार्ता है कि भारत में रामराज्य का आरम्भ हो चुका है। भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा खतरे को नजरअंदाज करने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, चीनी घुसपैठ के डर से कांग्रेस सरकारें चीन सीमा पर सड़क निर्माण से बचती थीं। मोदी सरकार के शासन में आज सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है और जरूरत पड़ने पर सेन उचित जवाब देने के लिए तैयार है।

आप के लोकसभा चुनाव-प्रचार अभियान में शामिल

होंगी सुनीता केजरीवाल, सप्ताहांत में करेंगी रोड शो



को पूर्ण राज्य के दर्जे का समर्थन

नर्ड दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगी। वह इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में एक रोड शो कर सकती हैं। पार्टी के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से आप का चुनाव-

प्रचार अभियान बहुत प्रभावित हुआ है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल उनकी अनुपस्थिति में चुनाव-प्रचार को गति देने के लिए खुद रोड शो करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी गई है। पार्टी के एक सूत्र ने बताया, ''मुख्यमंत्री की पत्नी आने वाले सप्ताहांत में कोंडली विधानसभा सीट पर अपना पहला रोड शो करेंगी। यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। सुनीता दिल्ली में अन्य तीन लोकसभा सीटों पर भी रोड शो करेंगी। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ रही आप ने पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं ।

अमित शाह ओडिशा में भाजपाके प्रचार अभियान की करेंगे शुरूआत

भुवनेश्वर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोनपुर से ओडिशा में भाजपा के



चुनाव अभियान की शुरूआत करने के लिए बृहस्पतिवार को राज्य का दौरा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि शाह पश्चिमी ओडिशा के सोनपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे जो बोलांगीर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि

शाह दोपहर करीब 3.45 बजे हैदराबाद से झारसुगुड़ा के वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से सोनपुर जाएंगे। शाह का शाम 4.35 बजे रामेश्वरम स्टेडियम में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

आज अपना घोषणापत्र जारी कर रहे

कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी

आमजन की संपत्ति घुसपैटियों को देना चाहती है कांग्रेस



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान देश व आम जनता के प्रति कांग्रेस की जो मानसिकता थी, वह कल एक बार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के हकों में लूट मचाना चाहते हैं। वो आमजन की संपत्ति को घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं।

फिर उजागर हुई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं न कहीं यह सब इशारे थे। सैम पित्रोदा ने कल जो बात कही है, 2011, 12, 13 में तत्कालीन मंत्री पी. चिदंबरम के द्वारा भी इन सब चीजों की बार-बार वकालत की जाती थी। कांग्रेस के वोट बैंक की पॉलिसी कि देश में आए घुसपैठिए सीएम योगी ने को लगभग 60-65 वर्षों तक लुटा। अब उसकी नीयत आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। इस कारण अब वह विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, असम व देश के अन्य भागों में करोड़ों घुसपैठिए, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे कांग्रेस के वोट बैंक की पॉलिसी है। यह पहले से ही देश की कीमत पर राजनीति करते रहे हैं। विरासत टैक्स भी उसी का हिस्सा है। आमजन की संपत्तियों को कब्जा कर घुसपैठिए को देगी कांग्रेस सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ यह टैक्स लादकर आम जनता को तबाह करेंगे। उनकी संपत्तियों को जबरन कब्जे में लेंगे, फिर घुसपैठिए को देंगे, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के प्रयास की उसी मंशा को उजागर किया है। यह तो अच्छा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, वरना कांग्रेस तभी लागु कर चुकी होती। सैम पित्रोदा की बात वही है, जो पी. चिदंबरम कह चुके हैं और कांग्रेस कर चुकी है। भारत को विभाजन की ओर ढकेलने की चेष्टा का हिस्सा है एक सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के इस्लामीकरण करने व विभाजन की ओर ढकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। यूपीए सरकार आने के बाद कांग्रेस ने उस समय भी कुत्सित प्रयास

किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। रंगनाथ कमेटी ने प्रयास किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला 27 फीसदी आरक्षण है, उसमें छह फीसदी आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। उस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है, जिसे दलितों का हिस्सा बनाया जाए। दलितों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुरूप उन्हें ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या सच्चर कमेटी की

अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था। पीएम मोदी ने जिन मुद्दों की ओर देश का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के हकों में यह लोग लूट मचाना चाहते हैं। अपीलः इंडी गठबंधन के मंसूबों को खारिज करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का करें सही प्रयोग सीएम योगी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हम मुसलमानों को 32 फीसदी आरक्षण देंगे। यह चीजें सच उजागर करती हैं। कांग्रेस के सांसद पद के प्रत्याशी भी सैम पित्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं।

पटना के एक होटल में लगी भीषण आग, अबतक ६ की मौत



मृत्युंजय कुमार ने कहा कि अधिकारियों

अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के

मुताबिक, अग्निशमन अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने होटल से कई लोगों को बचाया। अब तक कई लोगों को बचाया गया है और पीएमसीएच भेजा गया है। गुरुवार को पटना रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में आग लगने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलंबर के पास होटल में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पटना

अग्निशमन के डीआइजी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि अधिकारियों ने आग बुझा दी और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक, अग्निशमन अधिकारियों और स्थानीय ुपुलिस ने होटल से कई लोगों को बचाया। अब तक कई लोगों को बचाया गया है और पीएमसीएच भेजा गया है। यह लापरवाही के कारण है, ऐसा प्रतीत होता है कि सिलेंडर विस्फोट के कारण आग लगी। उन्होंने कहा कि हमने आग पर काबू पा लिया है।

यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा में शामिल, दिल्ली में मनोज तिवारी ने दिलाई सदस्यता

पटना। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गये। कश्यप को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों को प्रताड़ित किये जाने के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। कश्यप इस समय जमानत पर हैं। कश्यप यहां आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी तथा सह-प्रभारी संजय मयूख और मनोज तिवारी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर कश्यप की मां भी मौजूद रहीं। कश्यप ने पत्रकारों से कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूं। जब मैं नौ महीने जेल में था तो मेरी मां ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने ही मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए कहा।

Editorial

Turncoats

The pervasive trend of politicians of all hues switching parties, for better career prospects or in pursuit of election tickets especially ahead of Assembly or Lok Sabha polls, is nothing new. This phenomenon, commonly known as party-hopping, has now been flagged by former Vice-President Venkaiah Naidu as particularly damaging to our democracy. It also raises questions about the efficiency of the anti-defection law in curbing such practices. The law, enshrined in the Tenth Schedule of the Constitution, was introduced to deter elected representatives from switch ing allegiance to other political parties after being elected. The law aims to maintain stability and integrity within the political system by penalising defections and preserving the sanctity of electoral mandates. However, despite its existence, party-hopping remains a disturbing trend in Indian politics. Politicians often defect from their original party to join another for a ticket, ministerial position or personal ambitions Additionally, the anti-defection law is limited in its scope and does not address the broader issues of political morality and ethics. Politicians often exploit legal loopholes and engage in prolonged legal battles to circumvent disqualification, thereby escaping ac countability for their actions. This not only undermines the democratic process but also erodes public trust in the political system. However, the toothlessness of the anti-defection law and the failure to effectively address this issue reflect deeper systemic challenges within the political system. So, why is the anti-defection law still toothless in addressing this issue? One of the primary reasons is the loophole in the law that allows for defection without disqualification under certain circumstances. The law permits defection if one-third or more of the members of a legislative party together decide to join another party, effectively legitimising mass defections. This provision has been exploited by political parties to engineer defections and destabilise rival Governments. Moreover, the anti defection law lacks stringent enforcement mechanisms and timely interventions. While the law penalises indi vidual defections, it does little to address the systemic factors that incentivise party-hopping, such as the allure of power, patronage politics and lack of internal democracy within parties. Furthermore, the anti-defection law is subject to political manipulation and selective application by ruling parties. To strengthen the anti-defection law and address the scourge of partyhopping, comprehensive reforms are necessary. This includes closing loopholes, imposing stricter penalties for defections, enhancing oversight mechanisms and promoting internal democracy within parties. There needs to be a concerted effort to foster a political culture based on principles of integrity, account ability and ethical conduct. Urgent reforms are needed to strengthen the law, uphold democratic principles and restore public trust in the integrity of the political process.

Graft dominates election discourse

Innocuous developments are unfolding amidst the growing fervour of the impending elections. Despite concerns of the RBI regarding inflation, escalating toll rates, and transportation costs, the nation finds itself amidst a politically charged atmosphere. Nonetheless, certain court rulings are adding intrigue to the evolving scenario.?In addition to the impact of electoral bonds, which have added colour to the political landscape and influenced prices, three other judgments are exerting significant influence. These include the Supreme Court's hearings on the Voters Verifiable Print Audit Trail (VVPAT), commonly known as the voting slip; a judgment regarding the denial of payment to Reliance Infra for the Delhi Airport Metro EPL; and the severe criticism of Patanjali's owners, who are contemnors of court orders regarding their advertising. These developments are intensifying the dynamics of the electoral contest.Not less interesting is the ED mounting fresh money laundering probe into the Chhattisgarh liquor scam and the ED linking Kerala CPM leaders to bank fraud. Could there be more arrests even after Delhi CM Arvind Kejriwal and Kavita of BRS? Will prices take a backseat to politics and court rulings, or will they remain pressing con-

cerns alongside these factors? Voters, though reticent, are far from oblivious.

department are unlikely to Civil Aviation Minister change the general public Praful Patel, allegedly imperception that corruption

सम्पादकीय/विविध



Whether attending rallies of prominent leaders or not, they are keenly aware of every development that influences their lifestyle. Conversations range from questioning why individuals with questionable backgrounds align themselves with the BJP to analysing defections from BJP to Congress factions. Both voters and party members evaluate the potential implications of each unfolding event, particularly returning officers of Chandigarh municipal polls and Himachal defections.Corruption is not a non-issue. Arrests of select opposition State leaders on corruption charges by central investigative agencies such as CBI, ED, and income-tax

pervades all political parties. Many view the preelection arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal as a strategic move aimed at thwarting the popular politician's participation in the election campaign, rather than a genuine effort to address corruption. It leads them to think that possibly price surges of many medicines and commodities or galloping rises in tolls have electoral bond connections. Former Vice President Venkaiah Naidu's recent remark on corruption involving all parties has given it a new dimension for the voters to rethink the extent of the impact of corruption. Amidst the dropping of corruption charges against former Union crore aircraft purchase scandal, questions arise as to why Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal faces arrest for his alleged involvement in a Rs 100 crore State liquor policy issue. People ponder whether the Air India selloff was conducted transparently or mired in controversy. The action against Kejriwal has spurred opposition unity, evident from the overflowing rally at Delhi's Ramlila Ground. The recent Supreme Court decision concerning Reliance Infra's Delhi Airport Metro's EPL has prompted questions about corporate exploitation of public sector Delhi Metro. The Court overturned its own 2021 order directing Delhi Metro to pay Reliance Infra Rs 2782 crore, which had ballooned to Rs 7686 crore with accrued interest. Chief Justice DY Chandrachud, along with Justices R Gavai and Surya Kant, justified this drastic action, citing a 'miscarriage of justice' resulting in an 'undeserved windfall' for Reliance Infra. This ruling, following closely after the electoral bond controversy, has heightened voter scepticism. Had Delhi Metro been forced to pay, it could have burdened commuters with significantly higher fares.Likewise, the court's rejection of Patanjali's apology in a contempt case, stemming from misleading advertisements contravening its order, serves as a stark example of how the rule of law can rectify corrupt practices, unveil false brand images, and maintain price stability. The court's warning to be prepared for consequences, along with its criticism of Uttarakhand Government, underscores the power of legal intervention. Erratic power bills and arbitrary demands in UP and many States are also potential issues. Each of these cases, people realise, are instances of political linkages affecting price rises and profiteering. The glaring lapses on the part of the executive and

administration add to the

woes of the people and the breakdown of the law-and-order machinery. The judiciary is uncovering corrupt practices that impact economic and administrative systems, consequently rising cost of living. Dainik Bhaskar has done a study on prices in Rajasthan. It finds that compared to 2019, prices of petrol, diesel and cooking gas increased by 42 per cent; food items cost 34 per cent more; medicine prices for diabetes and heart diseases rose by 54 per cent and people's dining outside has been reduced by 40 per cent. Pulses have become costlier by 20 per cent, vegetables by 233 per cent; taxi fares by 67 per cent, edible oil 100 per cent, and FMCG rose by 60 per cent. Salaries during the period for different classes have risen by 11 per cent to 26 per cent.Price concerns persist, with numerous unnecessary infra, road airport and metro projects shocking even political workers However, this doesn't diminish the significance of religious fervour surrounding the Ram temple and Modi's assurances, which remain potent issues in certain regions, albeit overshadowed by economic factors and caste considerations. Amethi and Raebareli, however, remain in focus, more than Varanasi.

THE DEMOCRATIC STATUS OF

Democracy Report 2024 claims that India has been reduced to the status of an "electoral autocracy" in 2018 and has further downgraded to "one of the worst autocracies". The report categorically found that almost all elements of democracy have worsened in more countries than improved and the report also singled out freedom of expression, fair elections and freedom of association/civil society as the three most affected elements of autocracy. There is ostensibly a clarion call for India to take on this global index based on arbitrary methods. The time has come to decolonise the democracy index and frame a domestic democracy index in the global area. Suffice it to say, that this report based on faulty methods has shaken India's sentiment. The dichotomy is quite apparent that India has been measured in a biased manner in the scale. The flawed methodology and nonchalant attitude of people who helm the global index have put India on a declining

eign ratings. The Indian Government publicly rejected this global democracy index, arguing that Delhi did not need the sermons. India has accused the rank and file of hypocrisy, calling them self-appointed guardians of the world who find it very difficult to stomach the fact that no one in India seeks their approval.Democracy Index of the Economist Intelligence Unit (EIU) gives an overview of the State of democracy in 165 independent countries and two territories. This includes almost the entire world population and most of the world's States (micro States are not counted). Rated on a scale of 0-10, the democracy index is based on five categories: electoral process and pluralism, Government activity, political participation, political culture and civil liberties. Based on the results of various indicators in these categories, each country is classified into one of four regime types- "full democracy", "flawed democracy", "hybrid regime" or "authoritarian re-

democratic standards in India. While democracy can be subjective, the EIU Democracy Index is based on five key indicators - the electoral process and pluralism, the functioning of Government, political participation, political culture and civil liberties. It is criticised that this democracy index sent out faulty information to the entire world. According to the EIU Democracy Index, India's civil liberties score was lower than in 2014. Civil liberties are assessed by freedom of expression, freedom of speech, restrictions on the Internet, the independence of the judiciary of the State and the ability of citizens to address their complaints to citizens. The perceptions of human rights, perceptions of religious discrimination and whether the Government uses new risks and threats as an excuse to limit civil liberties. Since 2017, civil liberties scores have been in free fall. It was 7.35 in 2017 and 2018, then dropped to 6.76 in 2019 and bottomed out in 2020 at 5.59. In

The Gothenburg- global index. The glo- gime". Note that since 2021 and 2022, India's sia and the United row. However, India is V-Dem bal criticism has alleg- 2015, the EIU has ob- civil liberties score was States. There are no currently ranked 126 out Institute's report on edly hurt India's sover- served a decline in 6.18 and by 2023 it had choices in half of them of 146 countries with a fallen again to 5.88, the score of Ghana, Thailand, Ecuador and Guatemala, all of which have lower Democracy index scores than India. While the civil liberties scores of developed countries have not improved over this period, India's deterioration has meant that India no longer ranks above them in this parameter. Precisely, according to the report declining civil liberties have affected India's democracy scores. As a result, the Indian Government decided to create its framework for democracy ratings after it was downgraded by international groups and indices. It contacted the Observer Research Foundation (ORF), one of India's largest think tanks, which has partnered with the Government on several projects and initiatives. According to the EIU Democracy Index, national elections will be held in 2024 in eight of the world's ten most populous countries Bangladesh, Brazil, India, Indonesia, Mexico, Pakistan, Rus-

for free and there is no lack of justice and many other prerequisites of democracy, such as freedom of speech and association. Not surprisingly, elections Bangladesh, Pakistan and Russia - where opposition forces are subject to State repression — do not lead to regime change or democracy. Elections in the United States, Brazil, India and Indonesia - all classified as "flawed democracies" — at least offer the possibility of change, although they are also likely to see incumbents or anointed followers win. The EIU Democracy Index's position on India's elections is problematic in terms of the methodology used in the study. The World Happiness Report is a publication that contains articles based on respondents' ratings of their own lives and national happiness ratings, which the report also correlates with various life (quality of) factors. In March 2024, Finland was declared the happiest country in the

world seven times in a

happiness score of 4,054 India is lower in the happiness index than its neighbouring countries like Nepal, Bangladesh and China. The decline in happiness levels is closely linked to India's deepening mental health crisis, exacerbated by the challenges posed by the Covid-19 pandemic. However, one can understand the situation in China. Then China can be ahead of India in terms of the happiness index. In the report, experts from fields such as economics, psychology, survey analysis and national statistics discuss how well-being measures can effectively measure national progress and address other related topics. Each report is structured into chapters that address the issue, delving deeper into topics related to happiness such as mental health, the tangible benefits of happiness, the role of ethics, political implications and links to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) approach to measuring subjective well-being and other international and na-

tional initiatives.

हीट स्ट्रोक ...उल्टी-डायरिया के मरीजों में इजाफा, डॉक्टर ने बताए नौनिहालों के लिए बचाव के तरीके



मुरादाबाद । शदीद गर्मी, गर्म बढ़ गया है। खासतौर पर बच्चों

तेज हवाएं और बढ़ता तापमान के लिए सावधानी बरतनी बहुत बच्चों के साथ-साथ हर उम्र के जरूरी है। बेवजह घर से बाहर लोगों के लिए खतरनाक है। गर्मी विकलने से छोटे बच्चों के साथ ही के मौसम में हीट स्ट्रोक का खतरा बुजुर्ग भी परहेज करें। अगर बच्चे

या बुढ़े बीमार पड़ते हैं तो उनके स्वस्थ होने में ज्यादा समय लग सकता है। क्योंकि, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नौजवान के मुकाबले कम होती है। जिला

अस्पताल के बाल रोग विषशज्ञ डॉक्टर अर्जुन टंडन के मुताबिक, बदलते मौसम में बच्चे ज्यादा तादाद में बीमार हो रहे हैं। काफी संख्या

बच्चों को एडिमट करने की नौबत करें। बाहर ठेले पर बिकने वाला ज्यादा सेवन करें। घर की बनी हुई नहीं आ रही। हालांकि, कुछ बच्चों जूस हरगिज न पिएं। कोशिश करें को एडिमट कर उनका इलाज किया ज्यादा से ज्यादा ताजा फलों का सेवन हैं। कोल्ड ड़िंक बिलकुल न पिएं।

और उल्टी, दस्त के बच्चे अधिक जा रहा है। उन्होंने हिदायत दी है की करें। उन्होंने बताया कि हीट स्ट्रोक आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ज्यादातर बाहर के खाने से बिलकुल परहेज से बचने के लिए पानी का ज्यादा से

और जूस का बिलकुल भी सेवन न

कुमार अग्रवाल ने कहा कि अक्सर परिवार में बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं ऐसे परिवारों के बुजुर्ग महिला और पुरुषों को आज

मोहब्बत के लिए तोड़ी मजहब की दीवार, परवीन बनी निशा सैनी



मुरादाबाद। अगवानपुर की एक मुस्लिम युवती ने मोहब्बत के लिए मजहब की दीवार तोड़ दी। उसने आर्य समाज मंदिर में हिंदू युवक से शादी कर ली। निशा परवीन आर्य समाज मंदिर में सात फेरे लेने के बाद निशा सैनी बन गई। अगवानपुर निवासी राजवीर सैनी मझोला सब्जी मंडी में सब्जी के आढ़ती हैं। पुलिस ने संवेदनशील मामले को देखते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं।

मखरों से बचने को बांटी मखरदानी, सफाई रखने के लिए किया प्रेरित



मुरादाबाद,। रोटरी क्लब मुरादाबाद मिडटाउन ने गुरुवार को विश्व मलेरिया दिवस पर रोटरी कम्यूनिटी कोर के अंतर्गत रोटरी ग्रामीण सेवा केंद्र लालपर

गंगवारी में मच्छरदानी वितरित किया। गांव की गलियों की सभी नालियों में एंटीलार्वा का छिड़काव किया गया। गांव में सेवा कार्य करने वालों को सम्मानित किया। डॉ.

सुमनेश रस्तोगी ने कहा कि रोटरी सदैव से ही निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना रोटरी का प्रमुख

बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग कर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। रोटरी क्लब मुरादाबाद उद्देश्य रहा है। स्कूल न जाने वाले मिड टाउन के अध्यक्ष रनवीर

मच्छरदानी का वितरण कर किया गया है। जिससे वह मलेरिया, डेंगू जैसी घातक बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। रोटेरियन कर्नल अतुल भटनागर ने गांव वालों से कहा कि साफ सफाई स्वच्छता का मंत्र है। नालियों में पानी इकट्ठा न होने दें और सदैव घर के आसपास की साफ सफाई रखें, ऐसी परिस्थितियों में मच्छर नहीं पनप पाएंगे और मच्छर न पनपने से ही मलेरिया पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। मच्छरदानी पाने वालों में अब्दल रजाक,रीना, भरी खातन, रामकली, अतरकली, महिपाल सिंह, बीना, जसोदा, राजेश्वरी, राममर्ति, प्रेमवती, राजा सिंह शामिल रहे। इस अवसर प रोटरी ग्रामीण सेवा केंद्र के संयोजक डॉ. मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, उदय सिंह और महिपाल सिंह को ग्रामीण सेवा के लिए सम्मानित किया गया कार्यक्रम का

संचालन रवि शंकर सिंह ने किया।

शिक्षा विभाग की अनदेखी स्कूली बच्चों पर न पड़ जाए भारी, अभिभावक भी बेपरवाह

की अनदेखी स्कुली बच्चों पर भारी पड सकती है। महानगर में आपको रोज बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल ई-रिक्शा और ऑटो में बेतरतीब ढंग से आते-जाते मिल जाएगे। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्कूटी और बाइक से स्कूल आ रहे हैं। स्कूल वाहन भी नियमों का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन, जिम्मेदारी अधिकारी मौन है। महानगर में नियमों को ताक पर रखकर स्कूली वाहन फरार्टा भर रहे हैं। अधिकांश स्कूली वाहन या तो पुराने हैं या अनिफट हैं। इक्का-दुक्का स्कूलों को छोड़ दें तो अधिकतर पब्लिक स्कूल के बच्चे निजी वाहनों से पहुंचते हैं। यह स्कूली वाहन ट्रैफिक नियमों को पूरा नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस की नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ाती स्कूल बसें रोजाना विद्यार्थियों की जान जोखिम में डाल रही हैं। यहां स्कूली वाहन को लेकर समय-समय पर जिला प्रशासन भी सख्ती दिखाता है। बावजूद उसके

मुरादाबाद, । शिक्षा विभाग है। स्कूली बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है। आपको रोज बच्चे ई- रिक्शा और ऑटो से स्कूल आते-जाते मिल जाएगे।

स्कूलों के बाहर खड़ी होती हैं बाइक-स्कूटी

कहने को तो स्कूल में बिना डीएल के स्कूल में विद्यार्थी बाइक या स्कूटी नहीं ला सकते हैं। लेकिन, स्कूल के बाहर आराम से खड़ी कर सकते हैं। जी हां इस समय कांठ रोड, पंचायत भवन, रामगंगा विहार के निजी स्कूलों के बाहर आपको देखने मिलेगा कि बड़ी संख्या में बच्चे रोक के बावजूद स्कूल व बाइक से आ रहे हैं। इनमें अधिकांश की आयु 18 वर्ष से कम होती है और वह स्कूल के बाहर वाहन खड़ा करके आराम से स्कूल आते हैं। इस पर स्कूल प्रबंधनों का कहना होता है कि स्कूल में किसी भी बच्चे का प्रवेश स्कूटी या बाइक के साथ नहीं है। बाहर की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की है। अभिभावक भी स्कूल प्रबंधन की मनमानी जारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।

डीआईओएस डॉ. अरुण दुबे ने बताया कि सभी स्कूलों को यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। अगर किसी स्कूल में नियमों का उल्लंघन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की

स्कूल वाहनों के लिए जारी

स्कूली वाहनों का रंग पीला हो एवं बस पर गहरे नीले रंग की 254 मिलीमीटर की चौड़ी पट्टी पर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए।

स्कूली वाहन के आगे की तरफ 50 मिलीमीटर सफेद रंग की रिफलेक्टिव टेप पर स्कूल का नाम लिखा हो और बाकी जगह लाल रंग की रिफ्लेक्टर टेप लगी होनी चाहिए।

स्कुली वाहनों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए।

वाहन स्कूल का अपना है तो उस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए। यदि वाहन अनुबंध के आधार पर है, तो उस पर ''ऑन स्कूल ड्यूटी'' लिखा होना

मेंटेन होना चाहिए। फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना

स्कूली बच्चों के लिए चाहे बस हो, वैन या कोई भी वाहन उसकी अनुमित होनी चाहिए।

स्कूली वाहनों पर कार्यरत चालक कम से कम 5 साल का अनुभवी होना चाहिए।

चालक का ट्रैफिक नियमों संबंधी तीन बार से ज्यादा चालान नहीं कटा होना चाहिए।

स्कूली वाहनों में चालक के अलावा कंडक्टर या अटेंडेंट होना अनिवार्य है।

स्कूली वाहन की स्पीड शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्कूलों की चहारदीवारी में ही वाहनों की पार्किंग होनी चाहिए एवं स्कूल परिसर में बच्चों को वाहनों से उतारा-चढ़ाना

फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य

स्कूली वाहन में स्कूल का

नाम, रूट, टाइमिंग आदि लिखा

स्कूल वाहन पूरी तरह से हो। वाहन पर स्कूल मालिक और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर

> भी अंकित होना चाहिए। चालकों परिचालकों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से कराए जाने वाले रिफ्रेशर कोर्स कराते रहना चाहिए।

चालक का हर तीन साल में एक बार सिविल सर्जन की ओर से मेडिकल फिटनेस का प्रमाणपत्र लेना होगा।

चालकों परिचालकों की पूरी यूनिफार्म होनी चाहिए। उस पर नेम प्लेट, लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए।

बच्चों को वाहनों में चढ़ाने उतारने के लिए पर्याप्त मैन पावर

यदि वाहन के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 207 के तहत चालान कटता है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाहन का रजिस्ट्रेशन, परिमट एवं ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।

स्कूली वाहनों की फिटिंग शीशे, टिन या तिरपाल आदि की नहीं होनी चाहिए। सभी स्कूली वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा होना जरूरी है।

स्पान्सरशिप योजना के लाभ को दादी संग चक्कर काट रही 10 साल की अवनी

मुरादाबाद, । सरकार जहां बेटियों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं चलाकर ''बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ'' का नारा दे रही है। वहीं छठी कक्षा की 10 साल की अवनी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही है। पिता को खोने के बाद वह बूढ़ी दादी के साथ स्पान्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के चक्कर काट रही है। बुधवार को सुबह 10:00 बजे पहुंची अवनी विभागीय अधिकारी से मिलने के लिए दोपहर तक विकास भवन की सीढ़ियों पर ही बैठी रही। इंतजार में उन्हें भूख के आगे बेबस होना पड़ा और विकास भवन की सीढ़ियों पर बैठ कर ही लंच करना पड़ा। दोपहर बाद तक इंतजार कर दादी पोती को मायूस होकर लौटना पड़ा। बुधवार की दोपहर 12 बजे विकास भवन की सीढ़ियों पर बैठी एक बूढ़ी महिला एक छोटी बच्ची के साथ बैठी खाना खा रही थी। यह बच्ची कोई और नहीं मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छठी कक्षा की छात्रा अवनी है। वह चिड़ियाटोला में रेलवे के क्वार्टर में दादी और मां के साथ रहती है। अवनी के पिता का देहांत कई

वर्ष पूर्व हो चुका है। मां कृष्णा घरों में चौका-बर्तन कर किसी तरह परिवार की गुजर-बसर कर रही है। घर में आर्थिक तंगी के कारण अब अवनी की आगे पढ़ाई पर संकट गहराने लगा। लेकिन, 10 वर्षीय अवनी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही है। अवनी बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग की स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए अपनी दादी के साथ विभाग

के कई महीनों से चक्कर काट रही है। लेकिन, विभागीय कर्मचारी उसे हर बार टरका देते हैं। बुधवार की सुबह 10 बजे अवनी दादी के साथ कार्यालय पहुंची जहां बाल विकास एवं महिला कल्याण अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी नहीं मिले। उनके कक्ष के बाहर बैठे कर्मचारी ने दोनों को कमरा नम्बर-11 में भेज दिया। जहां उन्हें हर बार की तरह नियमों को पहाड़ा पढ़ाकर टरका दिया गया।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11 असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेत् पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

26 April, 2024

संक्षिप्त खबरें

मेडिकल स्टोर के बिल्कुल पीछे झोलाछाप डॉक्टर बैठते हैं

एटाः शहर के पीपल अड्डे पर स्थित अभी मेडिकल स्टोर के बिल्कुल पीछे झोलाछाप डॉक्टर बैठते हैं और अंदर बहुत बड़ा उन्होंने एक बहुत



बडी जगह पर बेड डालकर मरीजों की भर्ती भी करते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के बाद भी और फर्जी डॉक्टर साहब को किसने प्रेक्टिस करने की छूट दे रखी है सोच ने की बात है डिग्री किसी की और प्रेक्टिस करें कोई और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ताकि मरीजों के साथ खिलवाड़ ना हो सके

बसपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन

एटा,आज का लोकसभा की कासगंज विधानसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इरफान एडवोकेट के चुनाव कार्यालय के कासगंज



शहर चामुंडा गेट स्थित बसपा के कार्यालय का उद्घाटन की अध्यक्षता कासगंज के प्रमुख इंजीनियर जनाब अब्दुल रब सब ने की जिसमें कांग्रेस के तमाम जाने-माने और बसपा के कैडर के संगठन के लोगों के साथ जनता ने सहभागिता की।

क्या इसी तरह अतिथि शिक्षको को देनी पड़ेगी कुबार्नी? हर बार कार्य के भुगतान के लिए करना पड़ता है लंबा इतजार

क्यों ना लिखूं सच देवेंद्र नगर से घनश्याम प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के पूर्व विधान सभा चुनाव में भी अतिथि शिक्षको को चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी जिसमे 3 सैकड़ा से अधिक अतिथि

अतिथि शिक्षक

शिक्षको को काम पर लिया गया था किंतु आज तक मानदेय नहीं दिया गया ।जबिक जो शासकीय लोकसेवक है जिनको लाखो में मानदेय प्रदान किया जाता है उनको समय से मानदेय प्रदान कर दिया गया है। प्रशासन पुनः उसी प्रक्रिया को दोहरा रहा है अतिथि शिक्षको की इयुटी लगाई जा रही है और विशेष पलिस अधिकारी का दर्जा देकर लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है क्या इस बार ही अन्य कर्मचारी की तरह भुगतान प्राप्त होगा या पिछले चुनाव की तरह बस इंतजार ही अतिथि शिक्षकों के हिस्से आएगा। फिलहाल तो प्रशासन की चुप्पी से अतिथि शिक्षक दुविधा में है और गुहार लगा रहे है की उन्हे उनके अतिरिक्त कार्य का पारिश्रमिक दिया जाए।

जय हनुमान सेवा मंडल (रजि0)शामली द्वारा बाबा बजरंग बली के जन्मोत्सव का 20वा विशाल श्री हनुमान जागरण महोत्सव एवं विशाल भंडारा

क्यूं न लिखूं सच राकेश गुप्ता

शामली। जय श्री राम श्री जय हनुमान सेवा मंडल (रजिङ्ग) शामली



द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी के सहयोग से बाबा बजरंग बली के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 20वा विशाल श्री हनुमान जागरण महोत्सव एवं विशाल भंडारे का आयोजन दिनांक 27 अप्रैल दिन शनिवार को शौर्य पेलेस माजरा

रोड पर रात्रि 8 बजे से बाबा की इच्छा तक आयोजित किया जा रहा है जिसमे बाबा का गुणगान करने मुरादाबाद से शिल्पी कौशिक जी बिजनौर से आकांशा मित्तल जी चंडीगढ़ से मोनू दुआ जी शामली से हरीश नामदेव जी बाबा को अपने प्यारे प्यारे भजनों से रिझाने आ रहे है। आप सभी धर्म प्रेमी अधिक से अधिक संख्या मै पहुंचकर बाबा के गुणगान

किसान के खेत से इंजन चोरी, पुलिस से शिकायत की

रिठौरा। लगातार क्षेत्र में चोर सिक्रय हैं। निरन्तर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिससे आमजन खासा परेशान है। थाना हाफिजगंज के पुलिस चौकी रिठौरा के गांव भटपुरा जागीर में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने किसान चन्द्रपाल के खेत में रखा इंजन चुरा ले गए।सुबह होने पर वह खेत पहुंचा तो घटना की जानकारी हुई। पीड़ित किसान ने पुलिस को लिखित शिकायत की है।

NSUI के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर एवं प्रदेश प्रभारी महावीर गुर्जर और रितु बराला का किया स्वागत



क्यो ना लिखू सच (आष्टा) महेन्द्र जैलवाल

आष्टा - भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयू आई) के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर राष्ट्रीय सचिव व मध्यप्रदेश एनएसयूआई के प्रभारी महावीर गुर्जर और रितु बराला का भोपाल जाते

समय अल्प समय के लिए आष्टा रूके वहां एनएसयुआई के कार्यकताओं ने तीनों राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया एवं आगामी रणनीति पर चर्चा की। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने लोकसभा चुनाव में सभी एनएसयूआई कार्यकताओं को महत्वपूर्ण भूमिका

निभाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सचिव व मध्यप्रदेश एनएसयूआई प्रभारी महावीर गुर्जर और रितु बराला ने एनएसयूआई की आगामी रणनीति से कार्यकताओं को अवगत करवाते हए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी ने परे देश में छात्र पंचायत का आयोजन करवाने एवं मोहब्बत की

दुकान का कैंपेन चलवाने के निर्देश दिए हैं हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में छात्र छात्राओं के बीच पहुंच कर छात्र पंचायत का आयोजन करेंगे। प्रदेश प्रभारी महावीर गुर्जर और रितु बराला ने छात्र छात्राओं के बीच सक्रिय रहने वाले एनएसयुआई कार्यकताओं को गुर्जर और रितु बराला का किया स्वागत आष्टा - भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयू आई) के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर राष्ट्रीय सचिव व मध्यप्रदेश एनएसयूआई के प्रभारी महावीर गुर्जर और रितु बराला का भोपाल जाते समय अल्प समय के लिए आष्टा रूके वहां एनएसयूआई के कार्यकताओं ने तीनों राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया एवं आगामी रणनीति पर चर्चा की। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने लोकसभा चुनाव में सभी एनएसयूआई कार्यकताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सचिव व मध्यप्रदेश एनएसयुआई प्रभारी

महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की बात

भी कहीं । इस दौरान विजय सोलंकी

ठरवक के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश

भटनागर एवं प्रदेश प्रभारी महावीर

महावीर गुर्जर और रितु बराला ने एनएसयूआई की आगामी रणनीति से कार्यकताओं को अवगत करवाते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी ने पूरे देश में छात्र पंचायत का आयोजन करवाने एवं मोहब्बत की दुकान का कैंपेन चलवाने के निर्देश दिए हैं हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में छात्र छात्राओं के बीच पहुंच कर छात्र पंचायत का आयोजन करेंगे। ड्रप्रदेश प्रभारी महावीर गुर्जर और रितु बराला ने छात्र छात्राओं के बीच सक्रिय रहने वाले एनएसयूआई कार्यकताओं को संगठन में विधानसभा एवं जिले में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की बात भी कहीं । इस दौरान विजय सोलंकी राहुल पटारिया, देवराज मालवीय, आशुतोष नामदेव, शुभम कुशवाह, नरेंद्र सवारियां , सुनील सोलंकी, आशुतोष सिंदल, रोहित , कुलदीप आदि

उपस्थित रहे।

आज शाम श्री बालाजी संकट मोचन सेवा

सिकंदर राजा

समिति अशोक नगर ताड़ीखाना मुरादाबाद की और से श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी हितेश्वरनाथ जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें समिति की ओर से विभिन्न झांकियां निकाली गई, यात्रा का रूट मनोकामना मंदिर ताड़ी खाने से गुरहट्टी चौराहा -टाउन हॉल- बुध बाजार से ताड़ी खाना होते हुए, अशोकनगर जेल के पीछे बालाजी दरबार में समापन हुआ साथ ही श्री बालाजी संकट मोचन सेवा समिति के महंत श्री विपिन जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पदाधिकारी विशेष रूप से आमंत्रित रहे महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉ विजयलक्ष्मी पंडित की ओर से मुख्य अतिथि प्रमुख किन्नर बहन रूबी ठाकुर मीडिया प्रभारी एडवोकेट शीतल राजपूत उपस्थिति रही उनके साथ श्रीमती माया राजपूत अक्षय राजपूत शिल्पी पल्लवी दीप्ति उपासना शर्मा रामारानी अंशु एवं सुषमा रेखा एवं सुनीता रानी उपमहंत स्वाति त्यागी महामंत्री मनोज त्यागी पार्षद विशाल सिंह के साथ-साथ सैकड़ो की तादाद में आदि लोग मौजूद रहे साथ ही समस्त उपस्थित बहनों का हृदय से आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर कार्यक्रम को सफल बनाया साथ ही प्रमुख किन्नर रूबी ठाकुर ने समस्त आयोजक एवं प्रायोजकों को बधाई दी.. वही रूबी किन्नर का कहना है

भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान, केशव प्रसाद मौर्य कासगंज,कार्यकताओं से गर्म कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए सहृदयता दल और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया

जोशी से मिले उपमुख्यमंत्री , मोदी जी के नेतृत्व में हुआ देश का चहुंमुखी विकास , भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का आह्वान। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज यहां सिढपुरा कस्बे के गंगा महारानी इंटरकालेज में आयोजित एक जनसभा में पहुंचे , उन्होंने यहां सभी मतदाताओं से राजवीरसिंह उर्फ राजू भैया को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार का काम बोलता है इसलिए आम मतदाता भारी मतों से जिता कर इनके हाथ मजबूत करते हुए मजबूत देश के निर्माण में सहयोग करें। इस अवसर पर उन्होंने प्रोटोकॉल

का परिचय दिया। और कार्यकताओं पटेल के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री

का उत्साह वर्धन किया। उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर

ने जिलाध्यक्ष शमीम अल्वी के सिंह यादव , पूर्व विधायक ममतेश

से भेंट कर अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी के लिए व्यक्त किया। कार्यक्रम में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद चौ.देवेन्द्

कोषाध्यक्ष सुभाष चन्द्र गुप्ता ,,शानृ सैफी , फिरोज सैफी , अफरोज अली ,सैफी , लतीफ सैफी ,फैजान , संजय यादव , अजीज अहमद अंसारी चन्द्र शेखर मौर्य , इस्लाम अल्वी शमसुद्दीन अब्बासी , मुवीन अहमद ,तमस अहमद , कप्तान सिंह फौजी , मुबीन खां , मुशीर अहमद सहित बड़ी संख्या में अपना दल एस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष राजू भैया (भाजपा प्रत्याशी) को

शाक्य , एम एल सी रजनी कांत

माहेश्वरी , पूर्व चेयरमैन नगर

पालिका कासगंज ,रुप किशोर

कुशवाहा , सभासद अशोक डांगरा

,अपना दल एस जिला सचिव

फखरदीन अब्बासी , जिला

जिताने का संकल्प व्यक्त किया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में छात्राओं व अध्यापिकाओं को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शपथ दिलाई गयी

जनपद एटा : आज दिनांक 25.04.2024 को यातायात जागरुकता पखवाडा– 2024 के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में महारानी



🌉 लक्ष्मीबाई वालिका इंटर कॉलेज एटा में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में छात्राओं व अध्यापिकाओं को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा की शपथ एवं यातायात नियमों के प्रति जानकारी दी गयी। प्रभारी

यातायात मय कर्मचारी गणों के साथ बस, ट्रक, ऑटो, तथा टैक्सी चालको एवं परिवहन विभाग के समन्यवय से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनमानस को जानकारी दी गयी । फेसवुक, व्हाटसऐप, टिवटर एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगो को जागरुक किया गया। यातायात नियमों का उल्लघन करने वालो के विरुद्ध यातायात पुलिस व नागरिक पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी। दैनिक चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले विभिन्न वाहनों के 130

अध्यक्ष जिला पंचायत के सरकारी गृह प्रवेश में पहुंचे सांसद राजू भईया ने कश्यप बंधुओं से मिलकर किए गिले शिकवे दूर

करेगीं अध्यक्ष का कार्यकाल)

कासगंज / एटा । गत एक माह पूर्व एटा कासगंज संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे कुंचर देवेंद्र सिंह यादव द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो घोषणा हुई, उसने कासगंज जिले के अलावा एटा जनपद के कश्यप निषाद समाज जो संसदीय क्षेत्र में लगभग एक लाख अठारह हजार मतदाताओं के विराट संख्याबल को समेटे हुऐ है उसमें संकट के भ्रम की स्थिति उतपन्न कर दी थी। सजातियों को डर बना हुआ था कि पूर्व सांसद कुंठ देवेंद्र सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने से अब कासगंज जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर खतरे के गंभीर स्थिति को भांपते हुए सजातियों में



भारी विरोध भाजपा के प्रति पैदा हो गया था ! कश्यप निषाद समाज में फैली इस भ्रम की स्थिति को एटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं तीसरी बार कदावर ने गत बुधवार को कासगंज के अशोक कश्यप के नवनिर्मित सरकारी आवास पर

नारियल फोड़ कर दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने डील पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह वह बिना शर्त भाजपा में

शामिल हुए हैं। इस दौरान निषाद पार्टी एटा के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार कश्यप एवं मानव हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण गोपाल सिहं कश्यप ने सजातियों का आभार प्रगट करते हुऐ कहा कि जिस प्रकार मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को

संकल्पित होकर पार लगाएगा। दौरान जिला देवेंद्र कश्यप फिरोजपुर सानी, ब्रजेश कश्यप, सोबरन सिंह कश्यप प्रधान ग्राम रामताल, अशोक कश्यप, गंगा सहाय कश्यप पूर्व प्रधान, तालेवर कश्यप पूर्व प्रधान, जयपाल कश्यप प्रधान बोंदर , अशोक कश्यप प्रधान रनामऊ, मनोज कश्यप अमृतपुर, हरिशंकर कश्यप , राजपाल सिहं कश्यप, राजू कश्यप सहित एक हजार से अधिक की संख्या में

कश्यप समाज के लोग मौजुद रहे ! ई-चालान पर 1,28,000 रुपये पेन्डिंग जुमार्ना किया गया ।

भाईदर में जय श्री राम की गुंज

हनुमान जन्मोंत्सव पर विहिप एवम बजरंग दल की निकली शोभायात्रा



क्यूँ न लिखूँ सच अनिल मिश्रा

भाईंदरः पिछले दिनों भाईंदर पूर्व के नवघर रोड, बीपी रोड, केबिन रोड, गोल्डन नेस्ट में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकताओं द्वारा हनुमान जन्ममोत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई ! शोभायात्रा के दरम्यान सभी मार्गो पर भगवामय की

खुबस्रती देखने को मिली! शोभायात्रा के दौरान हनुमान जी के झांकियो के साथ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज एवम कई देवी देवताओं की भी झाकियां देखने को मिली ! रामभक्तो द्वारा पूरे नगर को भगवाध्वज के साथ सजाए जाने का नजारा देखते ही बना ! जगह जगह पर रामभक्तो द्वारा प्रसाद वितरण,

लड्ड वितरण, एवम मीठे पेय जल वितरण के कई केंद्र लोगो की सेवाओं में देखने मिले ! शोभायात्रा के दरम्यान सड़को पर कई जगहों पर पृष्प वर्षा का नजारा भी देखने मिला! विश्व हिंदू परिषद के जिल्हाध्यक्ष पवन ठाकुर, जिल्हासहमंत्री लालजी भानुशाली, जिल्हामंत्री अखिलेश उपाध्याय,

व रामभक्त धीरज पांडे, प्रशांत मिश्रा, अवधेश ठाकुर, आर्यन धाकड़, सागर पांडे, अनिल केसरी, साहिल कोटाडिया, सागर पांडे, प्रवीण तिवारी, रवि शुक्ला, सुशील वर्मा, श्याम गोस्वामी, अभिषेक शर्मा, बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता सहित सैकड़ों की संख्या में रामभक्तो की टोली नवघर रोड पर भव्य शोभायात्रा में शामिल होती दिखी पिछले कुछ दिनों में रामनवमी और हनुमान जन्मोंत्स्व में निकली भव्य शोभायात्रा ने एकतरफ मानो जहां हिन्दुत्व के बिगुल की झांकी दशायीं वही दूसरी तरफ किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए इसके मद्देनजर भारी सुरक्षा बंदोबस्त भी इन सभी शोभायात्रा में शासन प्रशासन के द्वारा भी देखने को मिली ! भाईंदर पूर्व में लगातार हो रहे धार्मिक आयोजनों और हिंदुत्व एकजुटता को लेकर हमारे संवादाता

ने कुछ रामभक्तो की की राय भी ली! जिसमे रामभक्त धीरज पांडे ने कहा कि हमे अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में हिन्दुत्व की एकजुटता को मजबूत बनाने की दिशा में सभी हिंदू संगठनों को एक प्लेटफार्म पर रख कर देशहित में अपने कदम उठाने की दिशा में काम करना है ! और अधिक से अधिक प्रत्येक धार्मिक आयोजनों में बच्चो को शामिल करने पर जोर देना है ! क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के संस्कृति, सभ्यता और देश के अलौकिक एकता एवम अखंडता की नींव है ! वही दूसरी तरफ धाकड़ फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेश धाकड़ ने कहा कि हमारे हिंदुओ को आर्थिक रूप से मजबत करने की दिशा में अपने अपने स्तर पर वो सदैव प्रयासरत रहते हैं! तो वही विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के शहर जिल्हाध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा

सदैव प्रयास रहता है कि हम जातियों को दरिकनार कर धर्म के नाम पर एकजुट बने ! और घर घर जाकर लोगो को संगठन से जोड़ने की दिशा में प्रयास करे ! कुल मिलाजुलाकार विहिप एवम बजरंग दल के आयोजनों में भव्यता का रूप जो देखने को मिला उससे साफ स्पष्ट होता है कि देश हिंदुराष्ट्र घोषित होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है! आयोजन में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभी रामभक्तो को अपनी शुभकामनाएं दी !

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए 9027776991

knlslive@gmail.com

आग से झुलसकर चार बकरियों की मौत

गाजीपुर। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के उतरांव ग्रामसभा के करकटपुर राजभर बस्ती में बुधवार की दोपहर में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से चार बकरियों की झलसकर मौत हो गई। साथ ही अनाज और कपड़ा सहित घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। करकटपुर (उतरांव) राजभर बस्ती में बैजू राजभर की झोपड़ी में आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्षेत्रीय लेखपाल राजेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए और क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट तहसील अधिकारियों को सौंप दी।

भाई की शादी से पहले दुकानदार की हादसे में मौत मिजापुर। सोनभद्र में दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा बाइक सवार दुकानदार मंगलवार की रात राज्य मार्ग-74 पर बगहा गेट के पास किसी वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कछवां अस्पताल ले जाया गया। वहां से ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किए जाने पर रास्ते में मौत हो गई। मौत से शादी की खुशियों का माहौल गम में बदल गया। कछवां थाना क्षेत्र के विदापुर निवासी सुशील पांडेय (45) की सोनभद्र के मारकुंडी में मोटर पार्ट्स की दुकान है। उनके भाई योगेंद्र पांडेय की 25 अप्रैल को शादी तय है। मंगलवार की रात सुशील दुकान बंद कर भाई की शादी में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे।रास्ते में कछवां थाना क्षेत्र के बगहा गेट के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर पैर कु चलते हुए फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सुशील घटनास्थल पर तड़पते रहे। उनका मोबाइल फोन वहीं पर गिर गया था। हादसे के बाद किसी रिश्तेदार का फोन आया तो वहां से गुजर रहे राहगीर ने रुककर फोन उठाकर बात की। बताया कि सुशील हादसे में घायल हो गए हैं। इसके बाद रिश्तेदार की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे।घायल को कछवां अस्पताल लेकर गए।वहां से उनको ट्रॉमा वाराणसी रेफर किया गया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर चले आए। सुशील चार भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनसे दो बच्चे लाडो और कान्हा हैं।

बुखार और पेट दर्द से दो की मौत, नौ मरीज भर्ती

वाहन की टक्कर से सुशील की मौत हो गई।

सशील की मौत से शादी का माहौल गम में बदल गया। चचेरे भाई दीनदयाल ने बताया कि सोनभद्र से घर लौटते समय रास्ते में किसी

चित्रकूट। गर्मी बढ़ने के साथ ही जिला अस्पताल में उल्टी दस्त, बुखार व पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ गई। बुधवार को बुखार और पेट दर्द से दो वृद्धों की मौत हो गई, जबकि नौ मरीज भर्ती हुए। रैपुरा थाना क्षेत्र के मगरहाई निवासी राजनारायण (74) को बुखार व पेट दर्द के चलते बेटे अजय सिंह ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा नया गांव थाना क्षेत्र के कटरा गूदर निवासी रामनरेश गुप्ता (65) को बुधवार की सुबह बुखार व पेट दर्द के चलते पुत्र सुनील कुमार ने भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन पुलिस को सूचना दिए बगैर शव को अपने घर ले गए। इसके अलावा शेखनपुरवा निवासी दिनेश का दो वर्षीय पुत्र छोटू, कर्वी माफी निवासी राम प्रसाद (60), चंद्रगहना निवासी देवराज (70), बघौड़ा निवासी कार्तिक (22), इटवां निवासी सावित्री देवी (30), सपहो निवासी देवीदयाल (60) प्रसिद्धपुर निवासी देवनाथ की पांच वर्षीय पुत्री सौम्या, देऊंधा निवासी चंद्रप्रकाश (५४) व इटखरी निवासी शंकरदीन (40) को उल्टी दस्त, पेट दर्द व बुखार के चलते भर्ती

मां ने पुत्र को ईट भट्टा से मुक्त कराने की लगाई गुहार

गाजीपुर। वाराणसी जनपद के चौबेपुर थाना के फूलपुर निवासी निर्मला बनवासी ने बुधवार को रामपुर मांझा थाना पुलिस और एमएलसी विशाल सिंह चंचल के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र देकर पुत्र बाबूलाल को ईंट भट्ठा से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।एमएलसी के प्रतिनिधि डॉ प्रदीप पाठक के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि एक ईंट भट्ठा संचालक पुत्र बाबूलाल को ईंट पथाई के लिए ले गए थे। उसके साथ उसकी पत्नी और दो मासूम बच्चे भी हैं। आरोप लगाया कि भट्ठा संचालक ने बिना मजदूरी दिए पुत्र को बंधक बनाकर मजदूरी करा रहा है। यहीं नहीं पुत्र को प्रतिदिन मारपीट भी की जा रही है। इसपर उन्होंने थानाध्यक्ष और श्रम परिवर्तन अधिकारी से वार्ता कर कार्रवाई करने को कहा। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

पिकअप की टक्कर से घायल किशोर की मौत

मिजापुर। प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र के छड़गड़ गांव के पास बुधवार को सुबह पिकअप की टक्कर से सड़क किनारे खड़ा किशोर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए इमंडगंज पीएचसी ले जाया गया। वहां से उसे ट्रॉमा सेंटर मिजार्पुर रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र के छडगडा निवासी शेखर कुमार (17) पुत्र राजकुमार सुबह करीब सात बजे घर के पास सड़क किनारे खड़ा था। तभी पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से वह घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए पास के पीएचसी ड्रमंडगंज ले गए। जहां से उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ड्रमंडगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इमंडगंज थानाध्यक्ष अरविंद सरोज ने बताया कि कोरांव के छड़गड़ा में पिकअप की टक्कर से किशोर घायल हो गया था। ट्रॉमा सेंटर मिजार्पुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

किसान की मौत में दोषी को सात साल की कैद

चित्रकूट। सिंचाई के लिए खेत में बिछाए गए तार में उलझकर करंट से हुई किसान की मौत के मामले में सत्र न्यायाधीश ने तार बिछाने के दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुमार्ना भी लगाया है। बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाने के बराछी गांव के कुशल का पुरवा निवासी रमाकांत उर्फ कंचन ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पिता कौशल किशोर (55) खेत की सिंचाई करने गए थे। बगल के खेत वाला रामपुर गांव का धर्मराज सिंह खेत की सिंचाई के लिए उनके खेत से लोहे का खुला तार जमीन से होते हुए अपने खेत ले गया था। 9 मार्च 2022 को खेत की सिंचाई के दौरान पिता कौशल किशोर तार की चपेट में आकर करंट से झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया कि घटना के बाद धर्मराज अपने तार खींचकर भाग गया था। इसके बावजूद मौके पर दो-तीन मीटर तार बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार (प्रथम) ने दोष सिद्ध होने पर धर्मराज को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

छत्तीसगढ पत्रकार जनकल्याण संगठन के सभी विंग प्रदेश अध्यक्ष एवं कोर कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग संपन्न अध्यक्षता मनोज वर्मा स्वतंत्र ने किया

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन भारत के राष्ट्रीय प्रभारी (मीडिया सेल) छत्तीसगढ़ पत्रकार जनकल्याण समिति . के संस्थापक/ अध्यक्ष प्रथम दस्तक न्यूज चैनल के एवं दैनिक समाचार पत्र शेट्टी टाइम्स के प्रधान संपादक मनोज वर्मा (स्वतंत्र) ने सभी प्रदेशाध्यक्ष की अचानक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई , जिसमे सभी प्रदेशाध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा अगर संगठन को मजबूत करना है तो आप लोगों को अपनी अपनी टीम को मजबूत करना होगा और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे है तो पद में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं ऐसी बातें सुनते ही सभी प्रदेश अध्यक्ष सकते में आ गए और श्री स्वतंत्र ने कहा की सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को

की जिम्मेदारी प्रिंट मीडिया अध्यक्ष की जिम्मेदारी और वेब पोर्टल अध्यक्ष



विंग, और जनरल कमेटी को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दिया गया है इसके बाद सभी सेल के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी अपनी बातें रखने का समय दिया गया जिसमे जनरल कमेटी,प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रदेशअध्यक्ष,युवा प्रदेशाध्यक्ष एवं सभी विंग के प्रदेशाध्यक्ष एवं कोर कमेटी ने बैठक में हिस्सा लिया जिसमे सभी प्रदेशाध्यक्ष को संगठन के संस्थापक /अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा (स्वतंत्र) ने अपने अपने सेल की कमान को संभालने को लेकर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सभी को आदेश दिया , प्रदेश कार्यकारिणी घोषित किये जाने पर बल दिया और आगे कहा कि जो संगठन की सोचेगा और उस पर चलेगा संगठन उसको आगे बढ़ाएगा जो संगठन को हल्के में ले रहे है उनके ऊपर कार्यवाही किया

जिनकी नियुक्ति हुआ है और काम नहीं कर रहे हैं उन्हें तुरंत पद मुक्त करने के संकेत कोर कमेटी को दे दिया गया है श्री वर्मा ने बताया की कुछ लोग संगठन के सदस्यों को बरगलाने की कोशिश कर रहें है ऐसी जानकारी कुछ पदाधिकारियों को मिली है इस पर श्री स्वतंत्र जी ने प्रदेश कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है की जो काम नहीं कर पा रहे है उनकी नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाए और उनके जगह पर दूसरे जानकर और मेहनतकश पदाधिकारी को कमान सौंपी जाए । इस पर प्रदेशाध्यक्ष (जनरल कमेटी) पी. के. बहपकड़िया ने एक्शन मूड में आते हुए कहा की हम अब प्रदेश एवं जिलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्द जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दिया

राज साहू ने श्री स्वतंत्र को जानकारी देते हुए कहा की युवा जिला अध्यक्षों की लिस्ट तैयार किया जा रहा है बहुत जल्द कई जिलों की लिस्ट जारी कर दिया जाएगा ,इस अवसर पर सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे इस पर मीटिंग में शामिल होने वालों में श्रीमती पार्वती वर्मा, श्री मित भामा साहू, देवनाथ जी, ,रंजना सिंह ,चंद्र शेखर, रविंद्र देवांगन, खेमन जायसवाल ,स्वीकृति श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष पी.बहपकड़िया, (जनरल कमेटी) राज साहू (युवा विंग) श्रीमती भगवती प्रदेशाध्यक्ष (महिला सेल) सुनील साहू (प्रिन्ट मीडिया) साधराम साह (इलेक्ट्रानिक मीडिया) चंद्र शेखर मेहेर(डिजिटल मीडिया) दीपक केसरवानी (वेब पोर्टल मीडिया) कोर कमेटी के पाधिकारी मौजूद रहे।

शामली में मुखबधिर दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने हेतू खुला स्कूल

क्यूं न लिखुं सच राकेश गुप्ता

शामली। शामली में विवेक विहार गली न. 2 टंकी रोड पर मुखबधिर

(गूंगे बहरें) बच्चों को शिक्षा देने हेत् खुला स्कूल। जन चेतना दिव्यांग सोसाइटी रजि. एनजीओ प्रदेश उपाध्यक्ष सपन ठाकुर की प्राप्त जानकारी के अनुसार धरती पर ऐसे भी बच्चे है जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं जो जन्मजात सुन नहीं सकते हैं तथा शिक्षा के अभाव में जिनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। ऐसे बच्चों के माता-पिता जीवन भर दुख के आंसू बहते हुए परेशानियों का सामना करते रहते है। लेकिन अब आधुनिकीकरण के इस दौर में ऐसे कुछ भी असंभव नहीं है ऐसे बच्चों को भी

ठीक कर उनका जीवन सुधारा जा सकता है क्योंकि आज विज्ञान ने अपर सफलता प्राप्त कर ली है। इस प्रकार के बच्चों के जीवन को सुधारने और उनको शिक्षा देने के लिए शामली में एक स्कूल खुल गया है जिसमें इस तरह के गूंगे बहरें बच्चों को शिक्षा दी जानी सम्भव हो सकी है। इस शिक्षा से इस तरह के बच्चों का जीवन ख़ुशहाल हो सकना सम्भव हुआ है। इस स्कूल में इस तरह के बच्चों को पहुंचाकर उनका जीवन प्रकाश से भार कर उज्जवल कर सकते हैं। आज जन चेतना दिव्यांग सोसाइटी की टीम ने उक्त दिव्यांग स्कूल की सुविधाओं की जानकारी ली, दिव्यांग बच्चों को गिफ्ट दिए तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024

मशीनों को कृषि उत्पादन मण्डी समिति ले जाकर रेण्डमाईजेशन के अनुसार ई॰वी॰एम॰ को बूथवार रखा जाएगा

अधिकारी आयुष चौधरी ने सूचित किया है कि मा0 आयोग के निर्देश के अनुपालन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत तृतीय चरण के मतदान दिनांक-07 मई के दृष्टिगत ई०वी०एम० वी०वी०पैट के द्वितीय रेण्डमाईजेशन की दिनांक-24.04.2024 को सम्पन्न किये जाने के उपरान्त मशीनों को कृषि उत्पादन मण्डी समिति जी०टी०रोड एटा ले जाया जायेगा, तत्पश्चात उक्त मशीनों को द्वितीय रेण्डमाईजेशन सूची के अनुसार स्ट्रांगरूम में विधान सभावार, मतदेय स्थलवार रखा जायेगा। इस हेतु दिनांक-24.04.2024 को कम्प्युटराइज्ड द्वितीय रेण्डमाईजेशन के उपरान्त मशीनों को कृषि उत्पादन मण्डी

वेयरहाउस खोला जायेगा। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों

25.04.2024 को प्रातः 10:00 कार्याल एटा पर प्रातः 10:00 बजे बजे ई०वी०एम० वी०वी०पैट ई०वी०एम० वी०वी०पैट

वेयरहाउस को खुलवाने एवं द्वितीय रेण्डमाईजेशन सम्बन्धी मशीनों को कृषि उत्पादन मण्डी समिति जी०टी०रोड एटा में चिन्हित किये गये वेयरहाउस, स्ट्रांगरूम में रखवाये जाने तथा मशीनों को द्वितीय रेण्डमाईजेशन सूची के अनुसार स्ट्रांगरूम में विधान सभावार, मतदेय स्थलवार रखे जाने सम्बन्धी समस्त कार्यों को अपनी उपस्थिति में

सम्पन्न कराने का कष्ट करें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रयोगार्थ ई०वी०एम०

सम्बन्धी शेड्यूल की सूचना समस्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराते हुए कमीशनिंग कार्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित रडढ के अनुसार कराया जाना है। उल्लिखित के परिप्रेक्ष्य में आप अपने से सम्बन्धित दल के प्रत्याशी, अधिकृत प्रतिनिधि को उक्त कमीशनिंग सम्बन्धी शेड्यूल की सूचना से अवगत कराते हुए दिनांक- 27.04.2024 से प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होने वाली कमीशनिंग में निर्धारित स्थल कृषि उत्पादन मण्डी समिति जी०टी०रोड एटा पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति में सम्पन्न कराने का

प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 43 डिग्री पर पहुंचा, चार दिनों तक हीट वेव की चेतावनी

बिगड़ता जा रहा है। तापमान नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गुरुवार को दिन का तापमान 43 डिग्री

पहुंच गया, जबिक बुधवार को तापमान 42 डिग्री के आसपास था। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह आसमान से आग बरसने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को जिले में तापमान इस साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। सारे रिकॉर्ड को

तोड़ते हुए तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान २९.1 रहा। सड़कों पर सन्नाटा रहा और आसमान से आग बरसती रही।हीट वेब

के चलते लोग मुंह में रूमाल बांधकर सड़कों पर देखे गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक इसी तरह की गर्मी और लू चलने की संभावना है। सुबह से ही सूरज ने

तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गर्मी से लोग बेहाल रहे। दिन में चल रही हल्की हवा सूरज के तेवर के आगे फेल रही। सुबह नौ बजे के बाद सड़कों पर लोग निकलने से परहेज करने लगे। जो लोग जरूरी काम से निकले उन्होंने गर्मी से बचाव

के जानकारों के अनुसार अभी पारा और चढ़ने का अनुमान है। भीषण गर्मी से बचने के लिए कुछ इस तरह से सड़क पर निकलीं युवतियां। - फोटो : अमर उजाला मौसम वैज्ञानिक डॉ. एचएन मिश्रा का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर प्रयागराज में देखने को नहीं मिलेगा। चिकित्सकों ने गर्मी को देखते हुए लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। चिकित्सकों ने शुगर व बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा है। इसके अलावा घर से निकलते समय पानी की रखने की सलाह दी है। बेली में डायरिया के तीन मरीज भर्ती तेज बहादुर सप्र अस्पताल बेली में पिछले दो दिनों में डायरिया के तीन मरीज भर्ती हुए हैं। इसमें दो छोटे बच्चे हैं। इनमें से दो मरीजों को प्राथमिक उपचार

गाजीपुर। नोनहरा थाना क्षेत्र के शहबाजकुली रेलवे लाइन पार करते समय मंगलवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भदेव गांव निवासी अनामिका (17) घर में किसी से कुछ बताए कही चली गई थी। परिवार के लोग उसकी तलाश में जुटे थे। रात में शहबाजकुली के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। दूसरे दिन कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत

सड़क किनारे खड़े वृद्धा की बाइक की टक्कर से मौत

मिजापुर। थाना क्षेत्र के रामपुर नौडीहा गांव में घर के पास सड़क के किनारे खड़ी वृद्धा को मंगलवार को देर शाम बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इससे घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। वृद्धा के पुत्र ने हलिया पुलिस को सूचना दी। थाना क्षेत्र के रामपुर नौडीहा गांव निवासी बुधनी (70) पत्नी किशोर मंगलवार को देर शाम अपने मकान के पास सड़क किनारे खड़ी थीं। तभी विपरीत दिशा से आ रहे कुशियरा गांव निवासी एक व्यक्ति ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए वृद्धा को टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बुधनी के पुत्र जमुना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष विष्णु प्रभा सिंह ने बताया कि बाइक की टक्कर से वृद्धा की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

बाइक से गिरकर महिला की मौत

चित्रकूट। सड़क पर गड़े होने से बाइक से पुत्र के साथ जा रही मां गिर गई। इससे उसकी मौत हो गई। मानिकपुर थाना क्षेत्र के चूल्ही के मजरा बराहमाफी निवासी मछला कोल (58) मंगलवार की शाम बेटे अर्जुन के साथ मझगवां गांव रिश्तेदारी में बाइक से जा रही थी। मानिकपुर-मझगवां मार्ग पर छेरिहा गांव के पहले काली देवी मंदिर के पास सड़क पर गड़ा होने से मछला देवी बाइक से सड़क पर गिरकर घायल हो गई।।पुत्र ने एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अमित शाह के बयान पर

कांग्रेस नेता के आवास पर गुरुवार को गठबांधन के जिलाध्यक्षों ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान अजय राय ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बनारस में कोई उद्योग नहीं लगा और न ही किसी को रोजगार मिला

अजय राय ने किया पलटवार वाराणसी। वाराणसी में

के लिए शरीर को पूरी तरह ढककर रखा। मौसम के बाद घर भेज दिया गया। आकेस्ट्रा पार्टी का वाहन पलटा, हादसे में किशोरी मौत; दो महिलाओं समेत चार लोग घायल

वाराणसी। सोनभद्र जिले के घोरावल-मिजार्पुर मार्ग पर धुरकुरी गांव के पास आर्केस्ट्रा पार्टी का वाहन पलट गया। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान एक किशोरी की मौत हो गई। सोनभद्र जिले के कोतवाली क्षेत्र के धुरकुरी गांव के पास बुधवार की रात आर्कस्ट्रा पार्टी का वाहन पलट गया। हादसे में किशोरी की मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया



है। एक ही टेंपो में सवार थे करीब 10 लोग घोरावल की आर्केस्ट्रा पार्टी वैवाहिक समारोह में कार्यक्रम के

लिए टेंपो से मिजार्प्र के सुगापाख गांव जा रही थी। टेंपो में करीब 10 लोग सवार थे और साउंड सिस्टम लदा था। इसी दौरान धुरकरी गांव में टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में घोरावल नगर के वार्ड नंबर २ निवासी गंगाप्रसाद (२८) पुत्र माले, शारदा (24) पत्नी गंगा प्रसाद, कन्हारी निवासी रामवृक्ष (29) पुत्र शिव, सिंगरौली के थाना गढ़वा निवासी फोटो कुमारी (18) पुत्री कमलेश और घोरावल निवासी

गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों व पुलिस की सहायता से सभी को घोरावल सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय दुर्गा कुमारी की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए

परीक्षा में अव्वल न आने पर छात्रा ने की आत्महत्या, परिवार परेशान; इलाके में सनसनी

कानपुर। मृतक के बाबा की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। छानबीन के दौरान पुलिस को परिजनों ने बताया कि छात्रा ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास न होने पर ऐसा कदम उठाया है। डेरापुर थाना क्षेत्र के ललपुरवा में एक छात्रा का शव देर शाम फंदे पर लटका मिला। मृतक के बाबा की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। छानबीन के दौरान पुलिस को परिजनों ने बताया कि छात्रा ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास न होने पर ऐसा कदम उठाया है। ललपुरवा निवासी संतोष की बेटी अंकिता (18) ने दो दिन पहले इंटर की परीक्षा पास की थी। बुधवार शाम उसका शव कमरे के अंदर साड़ी के फंदे से लटका मिला। बेटी का शव फंदे पर लटका देख मां उमा देवी, भाई विपिन, अभिषेक ने शोर मचाया। इस पर परिवार व पड़ोसी एकत्र हो गए।

संक्षिप्त खबरें

कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट की माँग ने जोर पकड़ा

संरक्षण को सीमित करते हुए कर्मचारियों,शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम् 02 वर्षो तक कर दिया स्थानान्तरण नीति शासन द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 1997 से लेकर गया है। परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक स्तर पर 2022 तक जब भी स्थानान्तरण पालिसी जारी की गई तब-तब राज्य प्रकरण में पुनर्विचार हेतु अनुरोध किये कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों जाने पर पूर्व की भांति निर्वाचित के प्रान्तीय अध्यक्ष महामंत्री,प्रान्तीय पदाधिकारियों (प्रा0 अध्यक्ष,प्रान्तीय महासचिव ,मण्डलीय अध्यक्ष महामंत्री,मण्डलीय अध्यक्ष ,मण्डलीय ,मण्डलीय सचिव, जिलाध्यक्ष, सचिव,जिलाध्यक्ष ,जिलामंत्री) को जिलामंत्री गण को उनके निर्वाचिन पूर्व की भांति स्थानान्तरण में छूट होने पद धारण करने से दो वर्षी तक यथावत जारी रखने हेतु सहमति बनी स्थानान्तरण में संरक्षण प्रदान किये थी। इस हेतु पत्रावली उच्च स्तर पर जाने का उल्लेख स्पष्ट रुप से किया अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने की बात गई थी। कदाचित सत्र की समाप्ति

पाया। जिसके परिणाम स्वरुप नियमानुसार निर्वाचित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कर दिया गया। वस्तुतः कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा संवर्गीय, कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी, समस्याओं को यथा स्तर निस्तारणार्थ समय-समय पर रखते रहते हैं, कभी कभार सम्बन्धित अधिकारी,प्राधिकारी इस बात को लेकर अर्न्तमन में द्वेष भाव का शिकार हो जाते हैं, और समस्या के निराकरण के स्थान पर

बनता है, जबिक वास्तव में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा समस्याओं के संकलन से लेकर संगत नियमोंध्अधिनियमों और उसके निस्तारण हेतु कौन प्राधिकृत है, की पहचान करके उनके कार्यालय में जाकर नियमों की परिधि में निस्तारण कराने का प्रयास ही करते हैं, ऐसा न होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कर्मचारियों की समस्याओं को कर्मचारी के हिसाब से सुनकर निस्तारण करने की स्थिति पर शासकीय कार्यो पर कितना प्रतिकृल प्रभाव पड़ेगा ? सोचनीय

की गई है। जिससे एक शुभिन्न वर्ग की समस्या को समेकित करते हुए संगत नियमों के आलोक में रखते हुए सम्बन्धित अधिकारी गण से निस्तारित कराने मे ंआसानी रहती है। मुख्य सचिव, महोदय के बार-बार निदेशों, आदेशों के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों समस्याओं के निस्तारण हेतू न तो नियमित बैठकें की जाती हैं और न ही नियमानुकुल माँगों.समस्याओं के निस्तारण में रुचि ली जाती है। यही कारण है कि समय-समय पर कर्मचारी संगठनों द्वारा आन्दोलन आदि की घोषणा करनी पड़ती है। और सम्बन्धित

OWN STATE

द्वेष भाव रखने लगते हैं। परिषद के महामंत्री श्री शिवबरन सिंह यादव व अपर महामंत्री डा० नरेश कुमार ने लोक सभा समान्य निर्वाचन के तुरन्त बाद आने-वाले स्थानान्तरण सत्र में मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों (प्रा0 अध्यक्ष,प्रान्तीय महामंत्री. अध्यक्ष,मण्डलीय मंत्री,जिलाध्यक्ष ध्जिलामंत्री) को पूर्व की भांति उनके पद धारण से दो वर्षी तक स्थानान्तरण में संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु स्थानान्तरण नीति में संशोधन करते

विभूतिखंड हैवल्स की बिल्डिंग में लगी भीषण आग लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आग लगने का सिलसिला लगाता

जारी है राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित हैवेल्स की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद है। 4 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हैवेल्स की यह बिल्डिंग विभूति खंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभूति खंड मार्केट के पास मौजद है। विभतखंड थाना क्षेत्र स्थित चार मंजिल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई आग के लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग है। आग बुझाने पहुंची दमकल की चार गाडियां व कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने के दौरान एक फायर विभाग का एक कर्मचारी घायल भी हुआ है। मौके पर मौजूद अधिकारियो ने बताया कि सुबह हैवेल्स की बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। जिसके बाद मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है घटना के बाद कुछ लोग बिल्डिंग में फंसे थे जिन्हें बाहर निकल गया है। विभाग पूरी शक्ति के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। बचाव कार्य के दौरान फायर विभाग के कर्मचारी लक्ष्मी नारायण यादव की हालत बिगड़ी है। हैवेल्स की बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए लगाए जाने वाले फायर उपकरण नहीं मिले हैं जिसके चलते बचाव कार्य में फायर विभाग को समस्या हो रही है।

खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, दो की मौत-एक घायल

लखनऊ। राजधानी से सटे रहीमाबाद इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है,जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। गुरुवार दोपहर में टेंट का सामान लेकर मवई कला से महबूब खेड़ा की तरफ एक ट्रैक्टर-ट्राली जा रही थी। महबूब खेड़ा मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में मौके पर ही शरीफ पुत्र सूबेदार, पतारी पुत्र बाबूलाल निवार्स मवई कला की मौत हो गयी। सूचना पाकर पहुंची रहीमाबाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में घायल व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है जिसका इलाज चल रहा है।

कन्नौज से अखिलेश ने किया नामांकन तो अपर्णा यादव ने ली चुटकी, कहा, उन्हें डर हैं

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने पर कहा, लोग भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीताने का मन बना चुके हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बात है तो इनके बड़े नेताओं ने अब चुनावी मैदान में उतरने का तय किया है क्योंकि उन्हें च्ड मोदी से डर हैं इसलिए वे अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं। इसके साथ ही ही उन्होंने ने कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने बहुत सार्र सीटों को सुरक्षित बनाया लेकिन उन सीटों पर भी भाजपा ने अपनी मेहनत से कमल खिलाया है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किय है कि पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए इनके शीर्ष नेतृत्व को उतरना पड़ेगा, इसी के तहत उन्होंने (अखिलेश यादव) अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ अपर्णा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी मैदान मे उतर जाए, भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को कन्नौज सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले तेज प्रताप यादव को सपा ने कन्नौज से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन आज अचानक अखिलेश के नामंकन से भाजपा खेमे में हलचल मच गई।

लखनऊ मेट्रो की अनूठी पहल, विजेताओं को मिली पुस्तके

लखनऊ। मेट्रो ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिल कर रीड योर वेह्न थीम पर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ने मेट्रो यात्रियों को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के बारे में जागरुक किया। प्रतियोगिता में पुछे सवालों का मेट्रो यात्रियों ने उत्साह के साथ जवाब दिया एवं विजेताओं को नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से किताबें पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई। लखनऊ मेट्रो के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का एक मात्र पुस्तक प्रोन्नयन केंद्र स्थित है। यहां मौजूद बुक स्टोर में आत्मजीवनी इतिहास, काल्पनिक-गैर काल्पनिक, विज्ञान एवं तकनीकी, कला एवं संस्कृति के साथ-साथ बच्चों एवं युवाओं के लिए ढेरों रोचक पुस्तकें उपलब्ध हैं यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने कहा, ह्ललखनऊ मेट्रो हमेशा ऐसे आयोजन करता है जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हमारे युवाओं में पुस्तक पढ़ने की आदतें विकसित करने का हमारा प्रयास हैं।

कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट की माँग

लखनऊ। राज्य कर्मचारियों,शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष स्थानान्तरण नीति शासन द्वारा जारी की जाती है। 1997 से लेकर 2022 तक जब भी स्थानान्तरण पालिसी जारी की गई तब-तब राज्य कर्मचारियो के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रान्तीय अध्यक्ष महामंत्री,प्रान्तीय महासचिव,मण्डलीय अध्यक्ष,मण्डलीय सचिव, जिलाध्यक्ष,जिलामंत्री को उनके निर्वाचिन होने पद धारण करने से दो वर्षी तक स्थानान्तरण में संरक्षण प्रदान किये जाने का उल्लेख स्पष्ट रुप से किया जात रहा, किन्तु 2023-24 में निर्गत स्थानान्तरण पालिसी में संरक्षण को सीमित करते हुए अधिकतम 02 वर्षो तक कर दिया गया है। परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक स्तर पर प्रकरण मे पुनर्विचार हेतु अनुरोध किये जाने पर पूर्व की भांति निर्वाचित पदाधिकारियों प्रा. अध्यक्ष,प्रान्तीय महामंत्री,मण्डलीय अध्यक्ष,मण्डलीय सचिव, जिलाध्यक्ष,जिलामंत्री को पूर्व की भांति स्थानान्तरण में छूट जारी रखने हेतु सहमति बनी थी। पत्रावली उच्च स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने की बात गई थी। कदाचित सत्र की समाप्ति तक संशोधन आदेश जारी नहीं हो पाया। जिसके परिणाम स्वरुप नियमानुसार निर्वाचित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कर दिया गया। अधिकारी,प्राधिकारी इस बात को लेकर अर्न्तमन में द्वेष भाव का शिकार हो जाते हैं, और समस्या के निराकरण के स्थान पर पदाधिकारियों को ही घेरने लगते है। यही करण आपसी टकराव का भी बनता है। परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव व अपर महामंत्री डा नरेश कुमार ने लोकसभा समान्य निर्वाचन के तुरन्त बाद आने-वाले स्थानान्तरण सत्र में मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों को पूर्व की भांति उनके पद धारण से दो वर्षो तक स्थानान्तरण में संरक्षण हेतु स्थानान्तरण नीति में संशोधन की मांग

कांग्रेस का अपनी दागदार विरासत से मुक्ति पाना मुश्किल है:मायावती

(बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने विरासत कर पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को लेकर उठे विवाद पर बृहस्पतिवार को कहा कि निजी सम्पत्ति पर विरासत टैक्स की सोच

और उसकी पैरवी कांग्रेस की गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास है। कांग्रेस का अपनी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति पाना मुश्किल है। 🛚 मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सैम पित्रोदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के

वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी सम्पत्ति पर विरासत टैक्स की सोच व उसकी पैरवी करना गरीबों की भलाई का कम, और इनकी ह्यगरीबी हटाओ की चर्चित विफलता सिविल जज के एकलौते बेटे ने की आत्महत्या,

आईआईटी जेईई परीक्षा परिणाम से था परेशान

एडीजे पांच विवेकानंद के एकलौते बेटे ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली

क्योंकि उसका आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहा। घ्पिछले

कुछ दिनों से जज का बेटा रिजल्ट को लेकर तनाव में था। बुधवार को प्रवेश

परीक्षा का रिजल्ट सामने आया था जिसको देखने के बाद सिविल जज के

बेटे अजितेश ने आत्महत्या कर ली। मृतक अजितेश की उम्र मात्र 19 वर्षीय

थी। बुधवार रात को अजितेश ने घटना को अंजाम दिया, मृतक ने अपने

कमरे में पर्दे से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली है कि

अजितेश रिजल्ट देखने के बाद तनाव में आ गया था। रात में वह खाना खाने

के बाद अपने कमरे में चला गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली।

1.00 बजे रात को परिजनों को शक हुआ तो वह अजितेश से मिलने के लिए

कमरे में गए। काफी देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन अजितेश की ओर से

कोई प्रतिज्ञा नहीं दी गई। जिसके बाद परिजन अंदर गए तो उन्हें अजितेश

अमृत अवस्था में मिला। 19 वर्षीय अजितेश के इस कदम के बाद परिवार में

कोहराम मच गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची

पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शव का पंचनामा कराया। पुलिस अधिकारियों ने

बताया की परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे इसलिए पंजनामे

की कार्यवाई करने के बाद शव को परिजनों को सौप दिया गया। परिजन

अंतिम संस्कार के लिए शव को अपने गांव लेकर गए हैं। अजितेश ने आईआईटी

जेईई प्रवेश परीक्षा का एग्जाम दिया था। परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अजितेश

तनाव में था। मां इस बात को भांप गई थी। जिसके चलते चार दिन पहले मां ने

अजीतेश का मोबाइल फोन अपने पास छिपा लिया था, जिससे वह रिजल्ट न

देख सके। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाई करते हुए शव का

पंजनामा कराया। पिरजनों को आग्रह पर शव को पोस्टमार्टम नहीं कराया गया

यूपी की आठ सीटों पर आज पड़ेंगे वोट,कड़े इंतजाम

कि दुसरे चरण की आठ लोकसभा सीटों के लिए 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान

में हैं। कल 26 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा।निष्पक्ष,

लखनऊ । यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया

गया है। मृतक के परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक सिविल जज लखनऊ में तैनात

पर से लोगों का ध्यान बांटने का चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। इसी पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि, जहां तक भारत में सम्पत्ति और सरकारी भूमि के वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों व वंचितों के लिए न्याय का सवाल है



तो इनकी (कांग्रेस की) सरकारों की सही नीयत के अभाव के कारण यहाँ गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की विवशता आदि दूर नहीं हो पायी। कांग्रेस को उसकी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति मिलना मुश्किल है।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा अमेरिका में विरासत कर कानून के बारे में बात करने और धन के पुनर्वितरण के मुद्दे का जिक्र किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने पित्रोदा की विरासत कर वाली टिप्पणी से खुद को अलग करते हुए कहा था कि इसे सनसनीखेज बनाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के श्दुर्भावनापूर्णश चुनाव अभियान से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। मोदी अपनी चनावी रैलियों में पित्रोदा की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर तीखे वार कर रहे हैं। वह जोर देकर कह रहे हैं कि पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के छुपे हुए एजेंडा को उजागर कर दिया है और यह पार्टी देश के सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों से इतनी दूर हो गई है कि वह कानूनी रूप से लोगों से

हो सकता है कल-परसों फिर से टिकट बदल जाए :अखिलेश

यादव ने बृहस्पतिवार को कन्नौज लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा के प्रमुख महासचिव

राम गोपाल यादव भी मौजुद थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद फेसबुक पर डाली गई पोस्ट में लिखा कि ह्य...कनौज क्रांतिह्न अब होकर रहेगी। इस पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान सामने

आया है। जयंत ने तंज कसते हुए कहा, ६..हो सकता है कल-परसों फिर से टिकट बदल जाए। वहीं, इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपने टिकट को ताश के पत्तों की तरह पलटते हैं... अब कमल खिलाने, भाजपा को जिताने और अखिलेश यादव को हराने में मजा आएगा। उन्होंने कहा कि 2019 में अखिलेश यादव भले प्रत्याशी नहीं थे... लेकिन सपा-बसपा के गठबंधन के बाद 2019 में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और पूरा सैफई परिवार हारा था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बहुत बड़े अंतर से कमल खिलेगा सपा ने इससे पहले मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश यादव 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार

> सांसद चुने गये थे। उसके बाद वह 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गयी थीं। वर्ष 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल ने इसी

सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 2019 के चुनाव में वह भाजपा के सुब्रत पाठक से पराजित हो गयी थीं। अखिलेश यादव वर्तमान में करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और उप्र विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वह करहल सीट से पहली बार विधायक बने थे। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आगामी 13 मई को मतदान होगा। इस सीट के लिये नामांकन बृहस्पतिवार 25 अप्रैल

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लखनऊ के 19 छात्रों ने हासिल किए 99 व उससे अधिक परसेंटाइल

लखनऊ। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) ने लखनऊ से अपने 19 स्टुडेंट्स की असाधारण उपलब्धि की घोषणा करते हुए गर्व महसूस किया, जिन्होंने ज्वाइंट एट्टेंस एग्जाम (जेईई) मेन 2024 के दूसरे सत्र में 99 व उससे अधिक परसेंटाइल हासिल किए हैं। उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले स्टूडेंट्स में सत्यांश गुप्ता ने 99.93 परसेंटाइल, सूरज कुमार ने 99.92, उत्कर्ष अग्रवाल ने 99.89, आयुष बरनवाल ने 99.89, नवीन कुमार ने 99.83, क्षितिज नारायण ने 99.76 (केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल) परसेंटाइल हासिल किए। साथ ही अन्य 13 स्टूडेंट्स ने 99 व उससे अधिक परसेंटाइल हासिल किए हैं। स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, बल्कि भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक में परीक्षण किए गए विषयों पर उनकी गहरी पकड़ को भी सामने लाता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 24 अप्रैल, 2024 की देर रात दूसरे सत्र के परिणामों का अनावरण कर उत्कृष्टता का एक नया मानदंड स्थापित किया है। आकाश एज्केशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) के क्लासरूम प्रोग्राम में नामांकित, इन छात्रों ने विश्व स्तर पर सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित आईआईटी जेईई को के लिए एक कठिन यात्रा शुरू की। जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आईआईटी जेईई को क्रैक करना था। उनकी उन्नति उनके अथक समर्पण का प्रमाण है, जो मुल सिद्धांतों को मास्टर करने और अनुशासित अध्ययन व्यवस्था का पालन करने में किया गया। अपनी गहरी कृतज्ञता का अभिव्यक्त करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया,, ह्लहम आकाश के विषेशज्ञ शिक्षकों की ओर से तैयार की गई सामग्री और कोचिंग के लिए ऋणी है, जो हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण साबित हुई। उनके अटूट मार्गदर्शन के बिना, एक संक्षिप्त समय सीमा के भीतर कई विषयों में महारत हासिल करना एक बड़ी चुनौती होती।ह्व आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) के रीजनल डायरेक्टर, डॉ. एच. आर. राव ने छात्रों को हार्दिक बधाई देते हुए जोर दिया, ह्लउनका उल्लेखनीय प्रदर्शन छात्रों को व्यापक कोचिंग और नवीन शिक्षण समाधान प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए एईएसएल की प्रतिबद्धता और प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हम कामना करते हैं कि वे अपने भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त करें। जेईई (मेन्स) छात्रों को अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए कई अवसर प्रदान करने के लिए दो सत्रों में संरचित है। जबिक जेईई एडवांस्ड विशेष रूप से प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) में प्रवेश की सुविधा देता है, जेईई मेन भारत भर में कई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और अन्य केंद्र-सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है. जेईई मेन में भागीदारी जेईई एडवांस्ड में प्रदर्शित होने के लिए एक शर्त है। आकाश बायजूस हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारूपों के माध्यम से व्यापक आईआईटी-जेईई कोचिंग प्रदान करता है। हाल ही में, आकाश ने कंप्यूटर-आधारित प्रशिक्षण विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसका अभिनव आई ट्यूटर प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान देता है, जिससे छात्र स्व-पुस्तक सीखने में संलग्न हो सकते हैं और छूटे हुए सत्रों को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा, नकली परीक्षण वास्तविक परीक्षा स्थितियों का अनुकरण करते हैं, परीक्षा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक परिचितता और आत्मविश्वास के साथ छात्रों को लैस करना है।

द्वितीय चरणः देश की 89 लोकसभा सीटों पर आज मतदान,कई दिग्गजों का इम्तिहान

स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें 10 महिला प्रत्याशी हैं। 1,67,77,198 मतदाता हैं। इसमें 90,26,051 पुरुष मतदाता, 77,50,356 महिला मतदाता व 791 थर्ड जेंडर हैं। अमरोहा से 12 प्रत्याशी, मेरठ से आठ, बागपत से सात, गाजियाबाद से 14, गौतमबुद्धनगर के लिए 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बुलंदशहर अजा के लिए 6 प्रत्याशी हैं। अलीगढ़ से 14 और मथुरा से 15 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। इन आठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत 40 विधानसभा सीटें आती हैं, जो अमरोहा, हापुड़, मरेठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, खुले मेनहोल, सीवर की सूचना के लिए जारी हुआ सीयूजी नंबर लखनऊ। बहुत देर से ही सही मगर नगर निगम प्रशासन जागा। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निदेशीनुसार नगर निगम लखनऊ द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम के नंबर पर संपर्क कर सकते है। सीयूजी नम्बर 6390909044 जारी किया गया है। नगर आयुक्त के मुताबिक नगर निगम परिक्षेत्र के अंदरकहीं भी मेनहोल, सीवर गडढै

इत्यादि खुले पड़े हो जिससे जानमाल का नुकसान होने की स्थिति

हो,उसकी सूचना सीयूजी नम्बर पर फोटो व लोकेशन के साथ दर्ज

करवाई जा सकती है,जिससे कि प्राप्त हुई सूचनाओं का संज्ञान लेकर

तत्काल प्रभाव से उनको निस्तारित किया जा सके। देर आये दुरूस्त

आये,सोच सही है लेकिन सिटी कमिश्नर को यह भी देखना होगा कि

सीयूजी नम्बर उठाने वाले जिम्मेदार हो और उनको बताई गई समस्या के

समाधान के प्रति आला अफसर और सम्बंधित कर्मचारियों में काम के

चनाव 2024 के दसरे फेज के लिए कल 26 अप्रैल को वोटिंग है। दूसरे फेज में 13 राज्यों और यूपी की आठ सीटों सहित कुल 89 सीटों पर मतदान होना है। इस फेज में 1210 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी में 91 प्रत्याशियों के भाग्य का भी निर्णय आज सुनायेंगे मतदाता। इस फेज में 13 राज्यों और यूपी में चुनाव होने हैं, लेकिन तीन राज्य इसके सबसे बड़े प्लेयर हैं। ये राज्य केरल, कर्नाटक और राजस्थान हैं। इस फेज में केरल की सभी 20, कर्नाटक की 28 में 14, और राजस्थान की 25 में 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। केरल के सियासी मैदान में एक बड़े अरसे से दो ताकतों का वर्चस्व कायम है। एक तरफ है वामदलों की अगुवाई वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और दूसरी तरफ है कांग्रेस की अगुवाई वाला के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। पिछले सात दशकों से इन्हीं दोनों ताकतों के बीच रस्साकशी देखने को मिली है। बीजेपी ने यहां अपना एक नया फ्रांट खोला है। नई रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है। बीजेपी का हिंदू वोटर्स के साथ ईसाई वोटर्स पर फोकस है। बाकी राज्यों के मुकाबले केरल का सियासी समीकरण अलग रहता है। यहां की अलहदा सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां इसकी वजह हैं। पारंपरिक तौर पर यहां कांग्रेस और सीपीएम ही मजबूत है।कर्नाटक में तीन बड़े दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। वर्चस्व की लड़ाई कुछ चुनावों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी यहां हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करती आई है। कर्नाटक ही दक्षिण भारत का वो राज्य है जहां बीजेपी मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश के 28 में 25 सीटों पर एकतरफा फतेह हासिल की थी। कांग्रेस को महज एक सीट से संतुष्ट होना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से कांग्रेसी नेताओं को इसबार बेहतर की उम्मीद है, बीजेपी के लिए अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है।राजस्थान में मुकाबला परंपरागत तरीके से बीजेपी बनाम कांग्रेस रहता है। 2019 के लोकसभा

चुनाव में यहां सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी इस बार के चुनाव को लेकर पीएम मोदी चुनावी रैलियों में कांग्रेस और उसकी पूर्ववर्ती सरकार को लेकर खूब घेर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा भी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नई बीजेपी सरकार पर सियासी हमला किया जा रहा है। दूसरे फेज के चुनाव में यहां से दो केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के स्पीकर और एक्स सीएम के बेटे किस्मत आजमा रहे हैं।इस फेज में केरल के सभी लोकसभा सीट पर चुनाव हैं। इनमें कन्नूर, वडकारा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एनार्क्लम औरतिरुवनंतपुरम जैसे महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। कर्नाटक की हॉट सीटों में हासन, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, दक्षिण कन्नड़, बैंगलुरु ग्रामीण, मैसूर, बैंगलुरु सेंट्रल, बैंगलुरु उत्तर, बैंगलुरु दक्षिण और कोलार सीट शामिल हैं।राजस्थान की हॉट सीट में टोंक, पाली, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बाड़मेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और कोटा शामिल है।

लोकसभा चुनावः पांचवे चरण में मतदान,अभी कैंडिडेट फाइनल नही

लखनऊ। लोकसभा चुनाव2024 में यूपी की दो सीटें बहुत खास बन गई हैं।उत्तर प्रदेश बीजेपी को दो बार सत्ता सौप चुका है, तीसरी बार फिर दिल्ली के सिंहासन पर नरेन्द्र मोदी को बैठाना चाहती है। प्रदेश की 80 सीट में 73 पर टिकट फाइनल हो गये लेकिन रायबरेली और कैसरगंज वेटिंग में है। सबसे खास बात न एनडीए का पत्ता खुला न इंडिया गठबंधन का। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट है। बीजेपी इस बार एक नारे के साथ चुनावी मैदान में है वो है,अबकी बार 400 पार। बीजेपी यूपी में ज्यादा जोर लगा रही है। प्रदेश की 80 में 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है बाकी की सीटों पर उसके सहयोगी मैदान में हैं। बीजेपी ने यूपी में अपने कोटे की 75 में 73 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है जबकि दो सीटों पर अभी तक अपने पत्ते पार्टी की ओर से नहीं खोले गये हैं। जिन दो सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, उनके लिए पांचवे चरण में

20 मई को मतदान होगा।

n recent vears.

worldwide have

gardeners

been turning to

coconut coir as

a versatile

sustainable

alternative

to traditional

Derived from

the fibrous husk

surrounding the

ranging from its

eco-friendliness to

In this article, we

will explore the

its impressive water

retention capabilities.

various ways you can

incorporate coconut

to enhance plant

coir into your garden

growth and promote

Coconut coir, often

referred to simply

as coir, is a natural

coconut industry. It

is obtained from the

surrounds the coconut

shell. Once harvested,

processed to extract

are then cleaned.

the coir fibers, which

dried, and compressed

into bricks or bales for

easy transportation

fibrous husk that

the husks are

a thriving ecosystem.

coconut fruit, coconut

benefits for gardeners,

coir offers numerous

ow to do dry skin brushing?

LA question that

has piqued our interest

other. However, before

we further explore on

how to, it is probably

what it is and how it

can make a difference

to our skin! So, what is

dry skin brushing? It is

a massage technique,

which is done before a

regular shower using

a stiff boar-bristled

loofah. What are the

benefits of dry skin

brushing? The answer

for this is, more than

possible. Of the many

the radical difference

in the appearance of

cellulite. Cellulite is

nothing but toxic fat

accumulation, which

causes the skin to

wrinkle. Dry skin

brushing tightens

the epidermis, and

material under the

skin, which in turn

than that, dry skin

brushing sloughs

off the dead skin

layer, boosts blood

muscles and improves

circulation, tones

the appearance of

the skin. Before we

have sensitive skin,

instead of a brush.

use a dry wash cloth

Also, avoid using the

technique if you have

an open wound or skin

infection! And the most

important, never try

skin. So, here is the

step-by-step method

on dry skin brushing!

dry brushing on facial

get started, there are

certain things you need

to keep in mind! If you

breaks down the toxic

reduces the appearance

of the cellulite. Other

what you imagined

benefits, probably

the most tauted is

wise to understand

at one point or the

Cellulite reduction: Dry skin

brushing is renowned for

its ability to diminish the

stimulating circulation

and lymphatic drainage,

it helps break down toxic

deposits beneath the skin,

dry brushing can help tone

and firm muscles, particularly

when combined with targeted

strokes. This can be especially

beneficial for areas prone to sagging or

laxity, such as the thighs and abdomen.

plays a crucial role in eliminating toxins

and waste from the body. Dry brushing

helps activate the lymphatic system.

facilitating the removal of metabolic

■ **Detoxification**: The lymphatic system

resulting in smoother,

firmer-looking skin.

Muscle tone: Regular

waste and promoting

detoxification at a

cellular level.

appearance of cellulite. By

How to use coconut coir in your garden

Benefits of coconut coir:

Eco-friendly: Coconut coir is a renewable resource that supports sustainable practices and reduces gardening's environmental impact. Excellent water retention: Coconut coir retains water well while allowing for proper

drainage, making it ideal for dry climates. pH Neutral: Coconut coir has a neutral pH. suitable for a wide range of plants without affecting soil pH.

> Weed suppression: Coconut coir mulch suppresses weeds by olocking sunlight and inhibiting weed seed

germination, reducing the need for manual weeding and chemical herbicides

Ways to use coconut coir in your garden:

Soil amendment:

into your garden soil to improve its structure and water retention capacity. Mix coir fibers with existing soil to increase aeration and drainage, creating a healthier environment for plant

Seed starting mix:

Create a lightweight and nutrient-rich seed starting mix by combining coconut coir with perlite or vermiculite. This mixture provides a sterile medium for germinating seeds and promotes healthy root development.

Composting:

Add coconut coir to your compost pile to enhance its structure and moisture retention. Coir acts as a bulking agent, helping to aerate

the compost and accelerate the decomposition process. It also balances nitrogen ratio, leading to faster and more efficient

Mulching: Spread a layer of coconut coir mulch around your plants to conserve soil moisture, suppress weeds, and regulate soil temperature. As the coir decomposes, it adds organic matter to

the soil, enriching it with

essential nutrients. Hydroponic

growing: Utilize coconut coir as a growing medium in hydroponic systems. Its excellent water retention properties make it an ideal substrate for growing plants without soil, providing ample moisture and support for root development.

Coir planters: Utilize coconut coir as a versatile alternative to traditional planters. Coir planters are lightweight, biodegradable, and breathable, providing an ideal environment for plant growth. Simply fill coir-lined baskets or pots with potting mix and plant your favorite flowers or herbs. The porous nature of coir allows for excellent air circulation around the roots, promoting healthy growth and preventing

Step-by-step guide on

dry skin brushing!

Benefits beyond what meets the eye



Step 1: Buy a boar-bristled brush, preferably with a long handle, so it can reach all the nook and crannies. Avoid using a synthetic bristled brush, as it can be aggressive on the skin!

• Step 2: Don't moisten your skin or apply any lotion. Simply commence by scrubbing just with the brush. Starting from your feet, work your way upwards in long strokes.

Step 3: Don't be overtly harsh or too gentle, idea is to apply pressure that is just right for your skin. Repeat the process several times, in a circular motion, to boost blood flow!

• Step 4: When you reach your breasts, slow down and reduce the pressure. Being a sensitive area, vou can easily scratch at the surface. Similarly, apply less pressure on your neck, as the skin on your neck tends to be thin and hence more prone to wrinkling.

Step 5: with your usual Later, pat dry your skin with and follow t up with a oody lotion or any herbal oil. We are particularly biased to baby oil as it soaks right up and leaves

your skin dewy • Step 6: Restrict the dry skin brushing to once or twice a week, as excessiv brushing can leave your skin

Say goodbye to dull, flaky skin! Dry brushing effectively sloughs off dead skin cells, promoting a brighter complexion and

Exfoliation:

encouraging cell turnover. This gentle exfoliation reveals healthier. more radiant skin underneath.



rhythmic motion of dry brushing can have a calming effect on the nervous system, promoting relaxation and reducing stress levels. Incorporating this practice into your self-care routine can be a soothing way to unwind and recharge

Improved absorption of skincare products: By removing dead skin cells and unclogging pores, dry brushing enhances the efficacy of skincare products applied afterward. This allows moisturizers serums, and oils to penetrate more deeply, maximizing their benefits for your skin.

Practicing safe and effective dry brushing

While dry brushing offers numerous benefits for the skin, it's essential to approach the practice with care and mindfulness. Firstly, it's crucial to choose the right brush, opting for a natural bristle brush with a long handle to reach all areas of the body comfortably. Secondly, be mindful of the pressure applied during brushing, avoiding excessive force that could irritate or damage the skin. Additionally, take

precautions if you have sensitive skin, opting for a softer brush or using a dry washcloth instead. It's also important to avoid dry brushing over open wounds, infections, or areas of irritation to prevent further discomfort or complications.

Lastly, remember not to overdo it; limiting dry brushing to once or twice a week is sufficient to reap its benefits without causing excessive dryness or irritation to the skin.

Lifestyle and reproductive health of

women: Taking control of your fertility

Tomen in their 30s and 40s, tend to experience a plethora of reproductive health problems that were not seen in their younger years. One concerning issue is a decline in fertility, inviting difficulties in conceiving naturally. This can be a taxing and emotional experience for many women and can destroy their peace of mind. Menopause in the late 40s brings a host of symptoms such as hot flashes, mood swings, and changes in libido. These hormonal shifts can impact both physical and emotional well-being, disrupting daily life and taking a toll on the relationships. One will struggle with poor selfesteem and issues such as depression. Women need to seek support and medical advice to navigate these changes effectively and ensure optimal reproductive

health post-30s and 40s.



As women turn into 30s and 40s, lifestyle factors play a vital role when it comes to maintaining good reproductive health. A healthy body weight through balanced nutrition and regular exercise can have positive impacts on one's fertility and reproductive function. alcohol intake and their fertility and fertility levels in the later take control of their stages of life. reproductive future.

Staying informed Stress management about menopause techniques such as yoga or meditation can reduce the impact of age related hormonal changes seen on one's

reproductive health. Prioritizing adequate sleep and reducing exposure to environmental toxins can also support optimal fertility outcomes in the 30s and 40s. As the body undergoes natural changes, regular check-ups become crucial for early detection of

problems.

any potential issues. Being aware of fertility preservation options is essential for women in their 30s and 40s who may be considering starting a family later in life.

By adopting a proactive approach to lifestyle choices, individuals can empower themselves to preserve their reproductive health well into their later years. So, stay vigilant,



Then we hear of serious injuries or ailments, we never think of natural remedies first, instead, we usually head to the doctors and have medicines prescribed, Well, while medical

care may be necessary to treat certain injuries, in the initial stages, it is also a fact that natural remedies can be used for their long-term treatments and these natural remedies have proven to be very effective! Now, we know that the spinal cord is one of the most important structures that lie in the back, starting from the brain. The spinal cord is a long, thin bundle of complex nervous tissues and support cells, which is responsible for carrying out certain important functions of the human

Turmeric can treat spinal injury better than drugs!

One of the main functions of the spinal cord is to transmit neural signals from the brain to the rest of the body parts to enable them to carry out their functions. Spinal cord injury can be extremely dangerous, in which the vertebral bones shatter and may harm the spinal cord, causing paralysis and even death! So, there is one natural ingredient that can help treat spinal cord injury, read along to know

Turmeric is an rich in nutrient content

and also comes with numerous medicinal properties that can treat certain ailments. In fact turmeric is used, even to this day, in many effective natural remedies and Ayurvedic medicines A new research article published in Neurology research International, says that turmeric has the capacity to treat spinal cord injury, even better than drugs! The research study also said that turmeric contains a powerful ingredient known as curcumin, which comes with antiinflammatory properties that can heal most kinds of injuries quickly! Even

when it comes to spinal cord injuries, caused by trauma to the spine, curcumin can reduce the inflammation and heal the injury naturally.

In addition, the curcumin compound present in turmeric can also aid the rejuvenation of the cells in the spinal cord, making the healing process quicker! So after the initial medical procedure done to treat the injuries, turmeric can be consumed or added to your diet, based on the instructions given by your doctor to



Hypertension alert! Foods to avoid with high blood pressure

early half of the population today is suffering from the wrath of hypertension. The symptoms of high blood pressure are seen in both men and women, irrespective of their age. Generally, diagnosis states that hypertension is carried forward from one person to the next by hereditary means. But it is also seen that people who are overstressed or suffer from panic attacks and anxiety, often fall prey to high blood pressure.

Once diagnosed, an individual needs to take utmost care of himself. Hypertension can often become deadly and can become the cause of associated diseases like heart attack, stroke, etc. These can lead to adverse health conditions, which can make a person paralyzed even. Therefore, it is increasingly important a person follows proper medication and food habits to control the blood pressure level. Research reveals that there are a number of foods which can increase the level of blood pressure. This in turn can have its detrimental effect on your health. Below is the list of few such foods which a person suffering from hypertension should strictly avoid. Take a look.

Limit the consumption

of salt if you are suffering from high blood pressure. Sodium can adversely affect your kidneys, heart, arteries, and brain with the high level of blood pressure. Too much blood pressure puts strain on the arteries, which eventually leads to narrowing of the arteries.

Further, too much sodium intake can damage the arteries, which connect to the heart. Initially, it reduces blood flow to the heart, which leads to heart attack. Therefore, a person shouldn't have less than 2.3 mg of salt in a day. Direct intake of salt and having foods containing a high amount of sodium will lead to an increase in blood pressure level.



Canned foods such as canned beans, boiled tomato products, and pre-made soups and noodles, contain a high amount of salt in it. This is because in order to preserve these products, a high amount of salt is required. So, while using canned beans, you can rinse it thoroughly

with coriander and water and remove the adequate amount of salt. Canned tomato products like tomato paste, ketchup, and sauces contain salt for preservation. It is therefore advisable to create a homemade sauce to avoid a high amount of salt content. Apart from these pre-made soups, instant noodles too have salt content. They may be easy to cook and eat but can adversely affect your health. So, purchase low-

sodium soups or make

at home itself.

them with fresh veggies



Processed food such as frozen chicken, beef, pork, fish, shrimps, etc., or ready-tofry chicken sausage, nuggets, or French fries, contain a high level of sodium for preservation. It might be tasty to eat and time saving, but it is always better to buy fresh products from the market, rather than consuming frozen products

that can increase the blood pressure having food containing high level.

of products which contain a high amount of sugar, which are either naturally or artificially added. An excess amount of sugar consumption leads to weight gain and adds extra calories. If vou are a diabetic patient

are a wide variety

In the market, there

amounts of sugar, it can adversely affect your health. Even for people who are suffering from hypertension, obesity is one of the reasons for increasing the level of blood pressure in the body. Therefore, limit the consumption of sugar directly or in foods such as chocolates, breads, preserved fruit juices, etc. Check for sugar alternatives if required but don't have too much sugar or sugary foods.

Soft drinksIt is seen that soft drinks supply more sugar to the body than chocolates. Prolonged consumption of soft drinks leads to obesity and subsequently increases the blood pressure level. Limit your soft drink consumption and instead have fresh fruit juice without sugar for having better health.

Pastries The delicious cookies, cakes, doughnuts, etc., are indeed mouthwatering. But despite their yummy taste, such products are harmful for people suffering from hypertension. This is because they contain a high amount of sugar in them that leads to weight gain. Obesity will not only lead to a bad shape but amongst its associated diseases, it is seen to escalate the blood pressure level as well.

Having a cup of warm coffee in the chilly days of winter mornings is a great way to kick-start the morning, but an increased level of caffeine consumed can lead to an increase in the blood pressure level. Although the amount increased stays only for a short span; but when the quantity of caffeine increases, the impact of it can wreak havoc. Therefore, limit the caffeine

consumption to twice a week.

Smoking is injurious to health-all of us are well aware of this statement. Tobacco is the main cause of cancer, lung dysfunction, health ailment, etc. Besides chewing or smoking tobacco increases the blood pressure by narrowing the lining of the artery walls. Both active and passive smoking can lead to an increased blood pressure level.

Some people are engrossed in the consumption of alcohol and often think of it as a modernist outlook But the amount of sugar contained in it can raise your blood pressure level. Alcohol leads to kidney failure, imposes heart risk, and leads to subsequent weight gain. All of these combined together induce the level of blood pressure and expose a person to potential hazards.

■ Pickles

In India, it is mostly seen that people consume pickles almost on a daily basis, either with chapatis or parathas. Though they are tasty to eat, the high amount of sodium content in the pickles for preservation can lead to an increase in the blood pressure level. Therefore, opt for pickles which contain a low amount of sodium of sugar in it.

So, if you are suffering from hypertension, it is important to keep a check on the food that you consume. Try to avoid the abovementioned foods and stay active and healthy.





